



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26-दिसम्बर 2, 2016 (अग्रहायण 5, 1938)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26-DECEMBER 2, 2016 (AGRAHAYANA 5, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I-खण्ड 2

[PART I-SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 नवम्बर 2016

सं.ए.-21/3187/2006-पीएमई-राष्ट्रपति, पूर्व प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) के सचिव के रूप में कार्यरत सशस्त्र सीमा बल के एरिया आर्गनाइजर श्री एन. सी झिंगटा की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को दिनांक 23.05.2016 से आगे दिनांक 22.05.2018 तक की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

ए. के. दास, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 मार्च 2016

सं. पीएफ. 2507-आर (3)/जीएन-7951/एएन-1/2016-श्री अजय आनंद, भा.पु. से (उ.प्र. : 92), जो वर्तमान में इस सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के रूप में कार्यरत हैं, को इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से 17 मार्च, 2016 के पूर्वार्द्ध से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् गृह मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

2. लोक सभा सचिवालय में श्री अजय आनंद की प्रतिनियुक्ति के वर्तमान कार्यकाल को 16.01.2016 से 16.03.2016 (अपराह्न) तक बढ़ाया गया माना जाएगा।

3. श्री अजय आनंद को 17.03.2016 से 13.05.2016 तक 58 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उन्हें उक्त अवकाश समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय में कार्यभार संभालने की सलाह दी जाती है।

पी. सी कौल, संयुक्त सचिव

सं.एफ. 2507—आर (3)/जीएन—7952/एएन—1/2016—अध्यक्ष महोदया, श्री योगेश देशमुख, भा.पु.से. (म.प्र. : 95) को लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर 37,400—67,000 (पीबी 4) + ग्रेड पे 10,000/— के पे बैंड 17 मार्च, 2016 (पूर्वाह्न) से 24 जनवरी, 2017 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त करती हैं।

पी. सी कौल, संयुक्त सचिव

दिनांक 9 मई 2016

सं. एफ. 23/22/2015/जीएन—7977/एएन—1—अध्यक्ष महोदया, श्री आर. एस. कम्बो, संयुक्त सचिव को 67,000—79,000 रुपये के एचएजी वेतनमान में अपर सचिव के ग्रेड में 08 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

पी. सी कौल, संयुक्त सचिव

सं. एफ. 23/22/2015/जीएन—7978/एएन—1—अध्यक्ष महोदया, निदेशक ग्रेड के निम्नलिखित दो अधिकारियों को नीचे दर्शाये गए क्रम में 37,400—67,000 (पीबी—4) + ग्रेड पे 10,000/— रुपये के पे बैंड में संयुक्त सचिव के ग्रेड में 08 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं :—

1. श्रीमती वंदना त्रिवेदी
2. श्री एस. सी. चौधरी

पी. सी कौल, संयुक्त सचिव

दिनांक 18 अगस्त 2016

सं. एफ. 15/08/2014/जीएन—8067/एएन—1—पूर्व अधिसूचना सं. एफ. 15/08/2014/जीएन—7767/एएन 1 दिनांक 11 जून, 2015 के क्रम में, अध्यक्ष महोदया डॉ वत्सला जोशी को 37,400—67,000 रुपए (पीबी—4) + ग्रेड पे 8,700/— रुपए के पे बैंड में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा (श्रीमती सुमित्रा महाजन) के विशेष कार्य अधिकारी (शोध) के रूप में प्रतिनियुक्ति तथा सहविस्तारी आधार पर 6 अगस्त, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. डॉ वत्सला जोशी की माननीय अध्यक्ष, लोक सभा (श्रीमती सुमित्रा महाजन) के निजी स्टॉफ में नियुक्ति माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के कार्यकाल के साथ और उनके प्रसादपर्यन्त होगी।

पी. सी कौल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली—110001, दिनांक 27 जनवरी 2016

सं. एफ. 23/02/2015/जीएन—7926/एएन—1—अध्यक्ष महोदया, श्री खखाई जो, उप सचिव, को 15,600—39,100 रुपए (पीबी—3) + ग्रेड पे 8,000/— रुपए के पे बैंड में अपर निदेशक के ग्रेड में 21.01.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ. 23/02/2015/जीएन—7927/एएन—1— अध्यक्ष महोदया, श्री जी. गुड्डे, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी को 15,600—39,100 रुपए (पीबी—3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपए के पे बैंड में 21.01.2016 से अगले आदेशों तक अपर सचिव के ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ. 23/14/2015/जीएन-7928/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित वरिष्ठ कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायकों को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपए के पे बैंड में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 21 जनवरी, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं :—

1. श्रीमती सुनीता रानी
2. श्री दिनेश चन्द्र बुगानी

2. उपरोक्त पदाधिकारी कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में 21.01.2016 से 20.01.2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20.12.2003 के आर एंड सी एस आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2016

सं. पीएफ. 276-आर (3)/जीएन-7929/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री सुरेश चन्द्र, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी, जिन्हें समयमान स्थापन योजना 2011 के अंतर्गत 15 अप्रैल, 2014 से अवर सचिव के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपए के पे बैंड में रखा गया है, 31 जनवरी, 2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. पीएफ. 934-आर(3)/जीएन-7930/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री बी. आर. वेंकटरामन, संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) जिन्हें 25 नवम्बर, 2010 से 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपए के पे बैंड में समयमान स्थापन प्रोन्नति दी गई थी, 31 जनवरी, 2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ. 15/10/2014/जीएन-7931/एएन-1—इस सचिवालय की दिनांक 29 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. एफ. 15/10/2014/जी एन-7810/ए एन-1 के अनुक्रम में, श्री ओ.पी.एस. मराठिया, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायक, जो वर्तमान में रेल अभिसमय समिति के सभापति (श्री भर्तृहरि महाताब) के वैयक्तिक स्टाफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, की प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल छह महीने की अवधि अर्थात् 29.01.2016 से 28.07.2016 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. पीएफ. 1432-आर(3)/जीएन-7932/एएन-1/2015—15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपए के पे बैंड में कार्यरत श्री विकास नेमा, सहायक संपादक को 01 फरवरी, 2016 के अपराह्न से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 01 फरवरी, 2018 अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हों, प्रतिनियुक्ति आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय को सौंपी जाती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2016

सं. पीएफ. 291-आर(3)/जीएन-7933/एएन-1/2016—विदेश मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर श्री सुजय कुमार ने इस सचिवालय में 01 फरवरी, 2016 के पूर्वाह्न से कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 12 फरवरी 2016

सं. एफ. 15/10/2014/एएन-1/जीएन-7934—ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सभापति (डॉ. पी. वेणुगोपाल) के निजी स्टाफ में कार्यरत श्री पी. लोगनाथन वरिष्ठ निजी सचिव, का 04 फरवरी, 2016 को निधन हो गया।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 15 फरवरी 2016

सं. पीएफ.2455-आर(2)/2016/जी एन-7935/ए एन-1—दिनांक 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं. एफ.15/6/जीएन-7271/ए एन-1/2013; दिनांक 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना सं. एफ.15/6/जीएन-7270/एएन-1/2013 और दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. एफ.15/6/जीएन-7324/एएन-1/2013 के अनुक्रम में निम्नलिखित स्थानापन्न संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-दो को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से स्थायी आधार पर संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-दो के रूप में नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	तारीख
1.	श्री अमित अनुराग	27.5.2015
2.	श्री आर. राजकुमार बाला सुब्रह्मण्यन	09.05.2015
3.	श्री मनोज कुमार	11.10.2015

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2016

सं. एफ. 23/2/2015/जीएन-7936/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री सुजय कुमार, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी को 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में अवर सचिव के ग्रेड में 10.2.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. श्री सुजय कुमार अवर सचिव के ग्रेड में श्रीमती सुनीता शर्मा से वरिष्ठ किंतु श्री श्रीकांत एस. से कनिष्ठ होंगे।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 18 फरवरी 2016

सं. एफ.23/01/जीएन-7938/एएन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, श्री चक्रपाणि मिश्र, संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-I को 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) के ग्रेड में 17.02.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ. 23/03/जीएन-7939/एएन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित अपर निदेशकों (लार्डिस) को 37400-67000 रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपये के पे बैंड में निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 17 फरवरी 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं :-

1. कुमारी मंजु जैन
2. श्रीमती मंजु शर्मा
3. कुमारी समिता भौमिक
4. डॉ. बी. सी. जोशी
5. श्री पुलिन बी. भूटिया
6. श्रीमती सुषमा रूंगटा

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/03/जीएन-7940/एएन-I/2016—डा. पी.जे. एंटनी, अपर निदेशक (लार्डिस), जो वर्तमान में माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डा. नज़मा हेपतुल्ला) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को 37400-67000 रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपये के पे बैंड में निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 17 फरवरी, 2016 से अगले आदेशों तक प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

2. वह निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में श्री पुलिन बी. भूटिया से वरिष्ठ किन्तु डा. बी.सी. जोशी से कनिष्ठ होंगे ।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/03/जीएन-7941/एएन-I/2016—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (लार्डिस) को अपर निदेशक (लार्डिस) के पद पर 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000 रुपये के पे बैंड में 17 फरवरी 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है:-

1. श्रीमती नलिनाक्षी त्रिखा
2. श्री मुकेश कुमार शर्मा
3. डॉ. रणबीर कुमार
4. श्रीमती मुसरत नौशाद
5. श्री संजीव सचदेवा
6. डॉ. सीमा कौल सिंह
7. श्रीमती रचना शर्मा
8. डॉ. दीपक गोसाईं
9. श्री प्रशांत कुमार मलिक
10. श्री बाबू लाल नाईक
11. श्रीमती इंदु गोयल
12. श्री राज कुमार
13. श्रीमती सुरिन्दर वालिया
14. श्रीमती इंदु भरिहोक
15. श्री सत्य विजय राम
16. श्री एस. हेलखोपावो बाइते
17. श्री एस.पी.राय चौधरी

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/03/जीएन-7942/एएन-I/2016—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित उप निदेशकों (लार्डिस) को संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के पद पर 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में 17 फरवरी 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है:-

1. सुश्री मधु शर्मा
2. श्रीमती प्रोमिला पंत
3. श्रीमती बेला राउत
4. श्रीमती निर्मला शर्मा
5. श्रीमती कुसुम रावत
6. श्रीमती रश्मि कपूर
7. श्रीमती लता बंसल
8. श्री गुरनाम सिंह
9. श्री बी.डी. शर्मा
10. श्री दलीप सिंह

11. डॉ. अमर कुमार प्रुस्ती
12. श्री एच. सोयखोलियन सिमटे
13. श्री बैकुंठनाथ महापात्रा
14. श्री राजेश्वर सिंह

2. संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20.12.2003 के आर एंड सी एस आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/03/जीएन-7943/एएन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित शोध/संदर्भ अधिकारियों को उप निदेशक (लार्डिस) के पद पर 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में 17 फरवरी 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है:-

1. श्रीमती पूजा सिंह
2. श्री एल. एफरी
3. श्रीमती नीलम बलहारा
4. श्रीमती इंदु मनन
5. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा
6. श्री सुरेश चन्द
7. श्री सुभाष चन्द
8. श्रीमती सीमा जैन
9. श्री अजित चौधरी
10. श्री जयंत कुमार सामल
11. श्री हर्ष बांगा

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/03/- जीएन-7944/एएन-1/2016—श्री रंगनाथन शिवासुब्रमण्य शर्मा, शोध/संदर्भ अधिकारी, जो वर्तमान में माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डा. नज़मा हेपतुल्ला) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर अपर निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 17 फरवरी, 2016 से अगले आदेशों तक प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. वह उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में श्री हर्ष बांगा से कनिष्ठ होंगे।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/03/जीएन-7945/एएन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित शोध/संदर्भ अधिकारियों को 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में नीचे दर्शाए गए क्रम में उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 17 फरवरी 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है:-

1. सुश्री आशा जयपाल सिंह
2. श्री नीरज शर्मा

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 29 फरवरी 2016

सं. पीएफ.853-आर (3)/जी एन-7946/ए एन-1/2016—राज्य सभा टेलीविज़न, राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (प्रशासन) के पद पर प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर श्री सुनील कुमार शर्मा ने इस सचिवालय में 25 फरवरी, 2016 के पूर्वाह्न से 15,600—39,100 (पीबी 3) + ग्रेड पे 5,400 के पे बैंड में शोध/संदर्भ अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पी.एफ. 221-आर(3)/जीएन-7947/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती के. रंगमणि नरसिम्हन, उप सचिव 29 फरवरी, 2016 के अपराहन से सेवा मुक्त हो गई हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 3 मार्च 2016

सं. एफ. 23/03/जीएन-7948/एएन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, श्री सुनील कुमार शर्मा शोध/संदर्भ अधिकारी को 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 02 मार्च, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. वह उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में सुश्री आशा जयपाल सिंह से वरिष्ठ किन्तु श्री रंगनाथन शिवसुब्रह्मण्य शर्मा से कनिष्ठ होंगे।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 31 मार्च 2016

सं पीएफ.25-आर(3)जीएन-7953/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री वी. आर. रमेश, अपर सचिव 31 मार्च, 2016 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2016

सं. एफ.15/08/2014/जी एन-7955/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री प्रदीप चतुर्वेदी, निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को 37400-67000 रुपए (पीबी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपए के पे बैंड में माननीय लोक सभा अध्यक्ष (श्रीमती सुमित्रा महाजन) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति और सह-विस्तारी आधार पर 29.03.2016 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. माननीय लोक सभा अध्यक्ष (श्रीमती सुमित्रा महाजन) के निजी स्टाफ में श्री प्रदीप चतुर्वेदी की नियुक्ति माननीय लोक सभा अध्यक्ष के सेवाधिति आधार पर और उनके प्रसाद पर्यन्त होगी।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2016

सं. एफ. 23/06/2016/जी एन-7956/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती सरोज अरोड़ा, संयुक्त निदेशक (पी एस एस) को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000 रुपए के पे बैंड में अपर निदेशक (पी एस एस) के ग्रेड में 11.04.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-7957/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती अनीता मलिक, वरिष्ठ निजी सचिव को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपए के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (पी एस एस) के ग्रेड में 11.04.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-7958/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती शशि खनेजा, निजी सचिव को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपए के पे बैंड में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में 11.04.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-7959/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री सैयद हारून कमाल, वरिष्ठ निजी सहायक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपए के पे बैंड में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में 11.04.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. वह निजी सचिव के ग्रेड में 11.04.2016 से 10.04.2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 13 अप्रैल 2016

सं.पी एफ.208-आर(3)/जी एन-7960/ए एन-1 /2015—15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपए के पे बैंड में कार्यरत, श्री कृष्णेन्द्र कुमार, उप सचिव को 13.04.2016 के अपराह्न से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है और तत्पश्चात उनकी सेवाएं 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपए के पे बैंड में विशेष अधिकारी (विश्वविद्यालय) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 14 अप्रैल, 2016 से 13 अप्रैल, 2019 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, राज्यपाल सचिवालय, बिहार को सौंपी जाती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 19 अप्रैल 2016

शुद्धि पत्र

सं. एफ.15/10/2014/ए एन-1/जी एन-7961—दिनांक 12.02.2016 की अधिसूचना सं जी एन-7934 में ग्रामीण विकास संबंधी समिति के सभापति डॉ. पी वेणुगोपाल के निजी स्टाफ में पूर्व वरिष्ठ निजी सचिव, स्वर्गीय पी. लोगनाथन के निधन की तिथि को 4 फरवरी, 2016 के स्थान पर 5 फरवरी, 2016 पढ़ा जाए।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 29 अप्रैल 2016

सं. एफ.23/03/जी एन-7962/ए एन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, श्री वी थॉमस नगाइते, संयुक्त निदेशक (लार्डिस) को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000 रुपए के पे बैंड में अपर निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में 27.04.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/03/जीएन-7963/एएन-1/2016—अध्यक्ष महोदया निम्नलिखित उप निदेशकों (लार्डिस) को संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के पद पर 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 27 अप्रैल, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं:-

1. डा. तुषार कांत
2. श्रीमती पूनम कटारिया
2. संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20.12.2003 के आर एंड सी एस आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/03/जी एन-7964/ए एन-1/2016—अध्यक्ष महोदया निम्नलिखित शोध/सन्दर्भ अधिकारियों को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपए के पे बैंड में उप निदेशक (लार्डिस) के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 27.04.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं :-

1. श्री नीरज कुमार
2. श्री अनुपम भारद्वाज

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ. 23/24/2015/जी एन-7965/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री धर्मेन्द्र मोहन दीक्षित, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400 रुपए के पे बैंड में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर 27.04.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. वह सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. श्री धर्मेन्द्र मोहन दीक्षित सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में श्रीमती संगीता भट्ट से वरिष्ठ लेकिन श्री कमलेश कुमार दुबे से कनिष्ठ होंगे।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 2 मई 2016

सं पीएफ.920--आर(3)जीएन-7966/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित निदेशक (रिपोर्टिंग) 30 अप्रैल, 2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

1. श्री एच.एन. गुप्ता
2. श्रीमती अचला मल्होत्रा

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं पीएफ.1532--आर(7)जीएन-7967//एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जसबीर सिंह, सुरक्षा अधिकारी 30 अप्रैल, 2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं पीएफ.972--आर(3)जीएन-7968/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती रतन पाल ग़ोवर, संयुक्त सचिव 30 अप्रैल, 2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं पीएफ.1347--आर(7)जीएन-7969/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती विजय कुमारी, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) 30 अप्रैल, 2016 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पीएफ.1361-आर (3)/जी एन-7970/ए एन-1 /2016—अध्यक्ष महोदया, श्री एस.एस. चौहान, संपादक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में संयुक्त निदेशक के ग्रेड में 01.05.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पीएफ.1400-आर(3)/जी एन-7971/ए एन-1 /2016—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती सुनीता थपलियाल, सहायक संपादक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में संपादक के ग्रेड में 01.05.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पीएफ.1047-आर(2)/जीएन-7972/2016/एएन-1—निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने सामने दर्शायी गयी तारीख से निजी सचिव के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है:-

क्र. सं.	नाम	परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी करने कमी प्रभावी तिथि
1	कुमारी रमा हरिहरन	08.05.2015
2	श्री अरुण कुमार वशिष्ठ	08.05.2015
3	श्री प्रदीप कुमार	08.05.2015

क्र. सं.	नाम	परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी करने कमी प्रभावी तिथि
4	श्री मनोज कुमार बुंदेला	08.05.2015
5	श्री विनोद कुमार	06.08.2015

2. यह अधिसूचना संख्या जीएन-7219 दिनांक 09 मई, 2013 और जीएन-7264 दिनांक 08 अगस्त, 2013 के अनुक्रम में है ।
अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 3 मई 2016

सं. पीएफ 2657-आर (2)/जीएन-7973/एएन-1/2016-श्री मनीष मोहन कांबले, स्थानापन्न कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी की परिवीक्षा अवधि 01 अप्रैल, 2015 से 08 अक्टूबर, 2015 तक बढ़ाई जाती है ।

2. यह अधिसूचना सं. एफ.15/18/जीएन-7246/एएन-1/2013 दिनांक 11 जून, 2013 के अनुक्रम में है ।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 4 मई 2016

सं. एफ 23/01/जीएन-7974/एएन-1/2016-अध्यक्ष महोदया निम्नलिखित अपर निदेशक (रिपोर्टिंग) को 37400-67000 रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपये के पे बैंड में निदेशक (रिपोर्टिंग) के ग्रेड में 02 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं :-

1. श्री के. श्रीनिवासन
2. श्री के.वी. जगन्नाथ

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/01/जीएन-7975/एएन-1/2016-अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) को 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000 रुपये के पे बैंड में अपर निदेशक (रिपोर्टिंग) के ग्रेड में 02 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं:-

1. श्री एल. हरिहर सुब्रह्मण्यन
2. श्री एच.सी. बिष्ट

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 23/01/जीएन-7976/एएन-1/2016-अध्यक्ष महोदया, श्री चन्द्रशेखर सिंह, संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-I को 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) के ग्रेड में 02 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं ।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 16 मई 2016

सं. पीएफ 2862-आर (7)/जीएन-7980/एएन-1/2016-डा. बलकार सिंह, संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-दो द्वारा दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें 16 मई, 2016 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल कार्यालय अर्थात् राज्य सभा सचिवालय को सौंपी गई मानी जाएंगी ।

2. लोक सभा सचिवालय में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-दो के पद पर उनका किसी भी प्रकार का धारणाधिकार नहीं होगा ।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 18 मई 2016

सं पीएफ.1775-आर(7)जीएन-7981/एएन-1/2016-श्री प्रद्युम्न सिंह ने 28 अक्टूबर, 2015 को सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी) के ग्रेड में अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 30.10.2013 की अधिसूचना सं. एफ./23/18/2013/जीएन-7323/एएन-। के अनुक्रम में है।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 25 मई 2016

सं. पीएफ 1325-आर (3)/जीएन-7982/एएन-।/2016—अध्यक्ष महोदया, सुश्री ऊषा जैन, अपर निदेशक (अनुवाद) को 37400-67000 रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपये के पे बैंड में निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में 24 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पीएफ 1342-आर (3)/जीएन-7983/एएन-।/2016—अध्यक्ष महोदया, श्री जे.बी.एस रावत, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) को 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000 रुपये के पे बैंड में अपर निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में 24 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पीएफ 1362-आर (3)/जीएन-7984/एएन-।/2016—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती मनीषा तिवारी, संपादक को 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में 24 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पीएफ 1406-आर (3)/जीएन-7985/एएन-।/2016—अध्यक्ष महोदया, श्री मनोज कुमार पंकज, सहायक संपादक को 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में संपादक के ग्रेड में 24 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ 15/10/2014/जीएन-7986/एएन-।—श्री शिवनाथ मिश्र को 31 दिसम्बर, 2015 से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति के निजी स्टाफ में 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया जाता है। उन्हें 29 अप्रैल, 2016 से 13 मई, 2016 तक 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 31 मई 2016

सं पीएफ.933--आर(7)जीएन-7987/2016/एएन-।—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती सरोज अरोड़ा, अपर निदेशक (पीएसएस) 31 मई, 2016 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं पीएफ.836--आर(7)जीएन-7988/एएन-।/2016—श्री राजेश्वर सिंह, संयुक्त निदेशक (लार्डिस) का 21 मई, 2016 को निधन हो गया।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 1 जून 2016

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-7989/ए एन-।—अध्यक्ष महोदया, श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, संयुक्त निदेशक (पीएसएस) को 15,600-39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000 रुपए के पे बैंड में अपर निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में 01.06.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-7990/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री पी. पी. शास्त्री, वरिष्ठ निजी सचिव को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपए के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (पी एस एस) के ग्रेड में 01.06.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-7991/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री सुखबीर सिंह दहिया, निजी सचिव को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपए के पे बैंड में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में 01.06.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-7992/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री राजेश चन्द्र भट्ट, वरिष्ठ निजी सहायक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400 रुपए के पे बैंड में निजी सचिव के ग्रेड में 01.06.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. वह निजी सचिव के ग्रेड में 01 जून, 2016 से 31 मई, 2018 तक दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 7 जून 2016

सं. एफ-23/07/2016/जीएन-7994/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री टी. एस. रंगराजन, अपर निदेशक को 37400-67000 (पीबी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपए के पे बैंड में निदेशक के ग्रेड में 6 जून, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/07/2016/जीएन-7995/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री शिवा नंद, अवर सचिव जो वर्तमान में माननीय संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति तथा सह विस्तारी आधार पर अपर निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 15,600—39,100 (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में उप सचिव के ग्रेड में 6 जून 2016 से अगले आदेशों तक प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान करती हैं।

2. वह उप सचिव के ग्रेड में श्री रमेश चंद वाधवा से वरिष्ठ लेकिन श्री ए.के.यादव से कनिष्ठ होंगे।

3. उप सचिव के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20 दिसंबर 2003 के आर एंड सी एस आदेश सं पीडीए - 1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/07/2016/जीएन-7996/एएन-1—अध्यक्ष महोदया निम्नलिखित अवर सचिवों को नीचे दर्शाये गए क्रम में 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में उप सचिव के ग्रेड में 06 जून, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं :-

1. श्री रमेश चंद वाधवा
2. श्री टीका राम नौरियाल
3. श्रीमती मधु भूटानी

2. उप सचिव के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20 दिसंबर, 2003 के आर एंड सी एस आदेश सं पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/07/2016/जीएन-7997/एएन-1—अध्यक्ष महोदया निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों को नीचे दर्शाये गए क्रम में 15,600—39,100 रुपये (पीबी -3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में अवर सचिव के ग्रेड में 06 जून, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं :-

1. श्रीमती सविता भाटिया

2. श्रीमती इंदु बाली

3. श्रीमती अनिता

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 10 जून 2016

सं. पीएफ.2657-आर(2)जीएन-7999/एएन-1/2016-दिनांक 3 मई, 2016 की अधिसूचना सं पीएफ.2657-आर(2)जीएन-7973/एएन-1/2016 के क्रम में, श्री मनीष मोहन कांबले, स्थानापन्न कार्यकारी/विधायी/समिति/ प्रोटोकॉल अधिकारी को 9 अक्टूबर, 2015 से स्थाई आधार पर कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 29 जून 2016

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8019/एएन-1-अध्यक्ष महोदया, 37400-67000 रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री आर.सी. तिवारी निदेशक को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त सचिव के पद के साथ सम्बद्ध 37400-67000 रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 10000 रुपये के पे बैंड में 29 जून, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8020/एएन-1-अध्यक्ष महोदया, 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 8,000 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्रीमती ममता केमवाल, अपर निदेशक को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत निदेशक के पद के साथ सम्बद्ध 37400-67000 रुपये (पीबी-4)+ ग्रेड पे 8700 रुपये के पे बैंड में 29 जून, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8021/एएन-1-अध्यक्ष महोदया, 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री जोगिन्दर सिंह, उप सचिव को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अपर निदेशक के पद के साथ सम्बद्ध 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 8,000 रुपये के पे बैंड में 29 जून, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8022/एएन-1/2016-अध्यक्ष महोदया, 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्रीमती रेणु चितकारा, वरिष्ठ निजी सचिव को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में 14 जून, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8023/एएन-1/2016-अध्यक्ष महोदया, 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 5,400 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्रीमती कान्ता नेगी, निजी सचिव को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत वरिष्ठ निजी सचिव के पद के साथ सम्बद्ध 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में 14 जून, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8024/एएन-1-अध्यक्ष महोदया, 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्रीमती ललिता अरोड़ा, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अपर निदेशक (अनुवाद) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 8,000 रुपये के पे बैंड में 27 जून, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8025/एएन-1-अध्यक्ष महोदया, 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्रीमती सुनीता उपाध्याय संपादक को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600-39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में 27 जून, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8026/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 5,400 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक संपादक को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संपादक के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में 27 जून, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 30 जून 2016

सं. पी. एफ.1021-आर(7)/जीएन-8028/2016/एएन-1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती मीना चटर्जी, वरिष्ठ निजी सचिव 30 जून, 2016 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गई हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. पी. एफ.1308-आर(3)/जीएन-8029/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती वंदना त्रिवेदी, संयुक्त सचिव 30 जून, 2016 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गई हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2016

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-8032/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती नीना शर्मा निजी सचिव को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपए के पे बैंड में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में 02.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-8033/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री पी. सुरेश कुमार, वरिष्ठ निजी सहायक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400 रुपए के पे बैंड में निजी सचिव के ग्रेड में 02.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. वह निजी सचिव के ग्रेड में 02 जुलाई, 2016 से 01 जुलाई, 2018 तक दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. पीएफ. 1363-आर (3)/जी एन-8034/ए एन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, श्री संतोष कुमार मिश्रा, संपादक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपए के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में 02.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

सं. पीएफ.1401-आर (3)/जी एन-8035/ए एन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, सहायक संपादक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपए के पे बैंड में संपादक के ग्रेड में 02.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2016

सं. पीएफ. 1040-आर (7)/जीएन-8042/ एएन-1/2016—श्रीमती सुधा गोयल, वरिष्ठ निजी सचिव का 03 जुलाई, 2016 को निधन हो गया।

अर्चना पठानिया, उप सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2016

सं. पीएफ.871-आर (3) /जी एन-8043/ए एन-1/2016—श्रीमती विजिता रे मालवीय, शोध/संदर्भ अधिकारी को दिनांक 11 जुलाई, 2016 के अपराह्न से इस सचिवालय से कार्य मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड

पे 6,600 रुपये के पे बैंड में ग्रंथालय और सूचना अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 12.07.2016 से 11.07.2019 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय को सौंपी जाती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2016

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8045/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री सत्यवीर सिंह, वरिष्ठ निजी सचिव को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में 12 जुलाई, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8046/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 5,400 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्रीमती ईशा चौधरी, निजी सचिव को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत वरिष्ठ निजी सचिव के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100 रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 6,600 रुपये के पे बैंड में 12 जुलाई, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 18 जुलाई 2016

सं. पीएफ-824-आर (7)/जीएन-8047/एएन-1/2016-सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48-क, जिसे समय-समय पर यथासंशोधित भर्ती और सेवा शर्तें आदेश सं. पीजीएफ-104/73 दिनांक 25 जनवरी, 1973 और भर्ती और सेवा शर्तें आदेश सं. पीजीएफ-201/79 दिनांक 01 जनवरी, 1979 के माध्यम से अंगीकृत किया गया था, के अंतर्गत, सक्षम प्राधिकारी ने 15,600—39,100 (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के पे बैंड में कार्यरत श्रीमती प्रोमिला पंत, संयुक्त निदेशक (लार्डिस) के सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को 18 जुलाई, 2016 से स्वीकार कर लिया है।

2. तदनुसार, श्रीमती प्रोमिला पंत 18 जुलाई, 2016 के अपराह्न से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2016

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8048/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 37400-67000 रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8700 रुपये के पे बैंड में कार्यरत, डॉ. डी.के.सिंह, निदेशक (लार्डिस) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त सचिव के पद के साथ सम्बद्ध 37400-67000 रुपये (पीबी-4)+ ग्रेड पे 10000 रुपये के पे बैंड में 20 जुलाई, 2016 से रखती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2016

सं. एफ-15/10/2014/जीएन-8049/एएन-1—श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के पद पर न रह जाने के पश्चात्, श्री सुधीर सिंह रावत, सहायक, ट्राइफेड, नई दिल्ली, जिन्हें उनके निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति/सह-विस्तारी आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, को 6 जुलाई, 2016 से 20 जुलाई, 2016 तक 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान की जाती है।

2. इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (पे-III) दिनांक 17.06.2010 के प्रावधानों, जिन्हें भर्ती और सेवा शर्तें आदेश सं. प्रकीर्ण 87/2011 दिनांक 04.02.2011 के माध्यम से अपनाया गया था, के अनुसार श्री सुधीर सिंह रावत को 21 जुलाई, 2016 से 16 सितम्बर, 2016 तक 58 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। इसमें शनिवार और रविवार होने के कारण 17 और 18 सितम्बर, 2016 को अन्त में जोड़ने की अनुमति दी जाती है। इसके पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् ट्राइफेड, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ-15/10/2014/जीएन-8050/एएन-1—श्री अर्जुन राम मेघवाल के लोक सभा की आवास समिति के सभापति के पद से त्यागपत्र के पश्चात्, श्री सुनील यादव, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक, राज्य सभा सचिवालय, जिन्हें उनके निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति/सह-विस्तारी आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, को 6 जुलाई, 2016 से 20 जुलाई, 2016 तक 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान की जाती है और उसके पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् राज्य सभा सचिवालय को वापस सौंपी जाती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ-15/10/2014/जीएन-8051/एएन-1—श्री पी.पी. चौधरी के लोक सभा की लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति के पद से त्यागपत्र और श्री राजेन गोहेन के दिनांक 05.07.2016 से लोक सभा की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संयुक्त समिति के सभापति के पद पर न रह जाने के कारण उनके निजी स्टाफ के निम्नलिखित वरिष्ठ निजी सचिवों, जिनकी नियुक्ति उनके सभापति के कार्यकाल के दौरान एवं सेवाधृति आधार पर और उनके प्रसादपर्यंत या सह-विस्तारी आधार पर की गई थी, को 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान की जाती है और उसके पश्चात् उनकी सेवाएं 20.07.2016 (अपराह्न) से, जैसा नीचे दिया गया है, समाप्त हो गई हैं :-

सभापति (यों) का नाम (समिति)	वरिष्ठ निजी सचिव
श्री राजेन गोहेन (अ.पि.व. के कल्याण संबंधी समिति)	श्री भद्रकांत नाथ
श्री पी.पी. चौधरी (लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति)	श्री राजेश चिप्पा

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 27 जुलाई 2016

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-8054/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती ज्योति प्रभाकर, निजी सचिव को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपए के पे बैंड में वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में 26.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/06/2016/जी एन-8055/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती सुनीता तगेजा, वरिष्ठ निजी सहायक को 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400 रुपए के पे बैंड में निजी सचिव के ग्रेड में 26.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. वह निजी सचिव के ग्रेड में दिनांक 26.07.2016 से 25.07.2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2016

सं. पीएफ.114-आर (3)/ जी एन-8056/ए एन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, दिनांक 31 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. पीएफ.114-आर (3)/ जी एन-7509/ए एन-1/2013 के अनुक्रम में, श्री संजीव शर्मा, अपर निदेशक, जो नौरु की संसद की लोक लेखा समिति में संसदीय सलाहकार और सचिव के पद पर कार्यरत हैं, की प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि अर्थात् 01 अगस्त, 2016 से 31 जुलाई, 2018 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2016

सं. पी.एफ.1454-आर(1) जी एन-8060/2016/ए एन-1—इस सचिवालय में, 15,600—39,100 रुपए (पीबी-3)+6,600 रुपए के पे बैंड में कार्यरत, श्री शिव प्रसाद, संसदीय भाषांतरकार, ग्रेड-1 को दिनांक 01 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न से कार्य मुक्त किया जाता है और

तत्पश्चात् उनकी सेवाएं 15,600–39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपए के पे बैंड में माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी) के अपर निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति और सहविस्तारी आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 3 अगस्त 2016

सं. एफ.15/10/2014/जीएन-8061/एएन-1—इस सचिवालय की दिनांक 01.02.2016 की अधिसूचना सं. एफ.15/10/2014/जीएन-7931/एएन-1 के अनुक्रम में, श्री ओ.पी.एस. मराठिया, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल सहायक, जो वर्तमान में रेल अभिसमय समिति के सभापति (श्री भर्तृहरि महताब) के निजी स्टॉफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, की प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि अर्थात् 29.07.2016 से 28.07.2017 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 10 अगस्त 2016

सं. पी.एफ.1349आर(1)/जीएन-8062/एएन-1/2014—पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में माननीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव) के ओएसडी के पद पर प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर श्री असित भूषण ने इस सचिवालय में 15,600–39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपए के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के रूप में 26 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न से कार्यभार संभाल लिया है।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.15/25/जीएन-8063/2015/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, दिनांक 27.11.2015 से 29.11.2015 तक आयोजित वक्तृता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर श्री चिन्टू ब्रह्मा के संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-दो (बोडो) के पद पर चयन के परिणामस्वरूप उन्हें 15,600–39,100 रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपए के पे बैंड में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-दो (बोडो) के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर 01 अगस्त, 2016 के अपराह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है।

2. वह 01 अगस्त, 2016 से 31 जुलाई, 2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आरएंडसीएस आदेश सं.पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 16 अगस्त 2016

सं. एफ.23/07/2016/जी एन-8064/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री मुरलीधरन पी., उप सचिव को 15,600–39,100 रुपए (पीबी-3+ग्रेड पे 8,000 रुपए (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में अपर निदेशक के ग्रेड में 15 अगस्त, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ.23/07/2016/जी एन-8065/ए एन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री कृष्ण सी. पाण्डेय, अवर सचिव को 15,600–39,100 रुपए (पीबी-3)+ग्रेड पे 7,600 रुपए (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में उप सचिव के ग्रेड में 15 अगस्त, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. उप सचिव के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के आरएंडसीएस आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. एफ. 23/07/2016/जी एन-8066/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, श्री गिरिधारी लाल, कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी को 15,600—39,100/— रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपए (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में अवर सचिव के ग्रेड में 15 अगस्त, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2016

सं. पी एफ. 1432आर(1)/जी एन-8071/ए एन-I/2015—मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय में अवर सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति से वापस आने के पश्चात् श्री विकास नेमा ने इस सचिवालय में 15,600—39,100/— रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपए (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में सहायक सम्पादक के रूप में 16 अगस्त, 2016 के पूर्वाह्न से पदभार सम्भाल लिया है।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पी एफ. 1026आर(3)/जी एन-8072/ए एन-I/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती रीटा माम, वरिष्ठ निजी सचिव, जिन्हें दिनांक 13 सितम्बर, 2015 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपए (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपए (संशोधन पूर्व) के पे बैंड में रखा गया है, 31 अगस्त, 2016 के अपराह्न से सेवा मुक्त हो गई हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

सं. पी एफ. 278आर(7)/जी एन-8073/ए एन-I/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्रीमती इन्दु बाली, अवर सचिव 31 अगस्त, 2016 के अपराह्न से सेवा मुक्त हो गई हैं।

अर्चना पटानिया, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 फरवरी 2016

सं. एफ. 23/24/2015/जी एन-7937/ए एन-I—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती संगीता भट्ट, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक को 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/— रुपये के पे बैंड में स्थानापन्न रूप में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में 17 फरवरी, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. वह सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी।

3. सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20.12.2003 के आर एंड सी एस आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 5 मार्च 2016

सं. पीएफ.2831-आर (3)/जी एन-7949/ए एन/2016—इस सचिवालय की दिनांक 18 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. पीएफ.2831-आर (3)/जी एन-7708/एएन/2015 के अनुक्रम में श्री सुशील कुमार झा, उप सचिव (तकनीकी), मंत्रिमंडल सचिवालय, जो वर्तमान में लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर अपर निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत हैं, की प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि अर्थात् 02.03.2016 से 01.03.2018 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 11 मार्च 2016

सं. पीएफ. 1541-आर(2)/जीएन-7950/एएन-1/2015—दिनांक 21.10.2013 की अधिसूचना सं. एफ./23/11/2013/जीएन-7316/एएन-1 के अनुक्रम में श्री सुखपाल सिंह नेगी ने 17 अक्टूबर, 2015 को सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 13 मई 2016

सं. एफ 23/24/2015/जीएन-7979/एएन-I—अध्यक्ष महोदया, श्री शिव कुमार, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक को 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/— रुपये के पे बैंड में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में 12 मई, 2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है।

2. वह सुरक्षा अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 7 जून 2016

सं. पीएफ 1206-आर(3)जीएन-7993/ए एन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत श्री एस एस कुकरेजा, अपर निदेशक (मुद्रण) को 37,400—67,000/— (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/— रुपए के पे बैंड में निदेशक (मुद्रण) के ग्रेड में 06.06.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 9 जून 2016

सं. पीएफ. 1242-आर(2)/जीएन-7998/एएन-1/2016—श्री दया शंकर ने 30.12.2016 को प्रोडक्शन अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. पीएफ. 1242-आर(3)/जीएन-7357/एएन-1/2013 के अनुक्रम में है।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 10 जून 2016

सं. पीएफ. 1774-आर(2)/जीएन-8000/एएन-1/2016—श्री पी. एस. रावत ने 28.09.2014 को सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी) के ग्रेड में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. एफ/23/3/2012/जीएन-6970/एएन-1 के अनुक्रम में है।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 27 जून 2016

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8002/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री असाखों चेचेई, शोध/संदर्भ अधिकारी को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत उप निदेशक (लार्डिस) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपये के पे बैंड में 02 मई, 2016 से रखती है।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8003/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्रीमती परमजीत करोलिया, अपर निदेशक (अनुवाद) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत निदेशक (अनुवाद) के पद के साथ सम्बद्ध 37,400—67,000/— रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/— रुपये के पे बैंड में 19 मई, 2016 से रखती/करती है।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8004/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत, निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (अनुवाद) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अपर निदेशक (अनुवाद) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/— रुपये के पे बैंड में 19 मई, 2016 से रखती है :-

1. श्री वीर सिंह त्यागी

2. श्रीमती अरुणा वशिष्ठ

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8005/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत, निम्नलिखित संपादकों को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के पे बैंड में 19 मई, 2016 से रखती हैं :-

1. श्री रविन्द्र कुमार मेड़
2. सुश्री परमजीत कौर

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8006/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री सुशांत कुमार पाण्डेय, सहायक संपादक को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संपादक के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के पे बैंड में 19 मई, 2016 से रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8007/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री विकास नेमा, सहायक संपादक जो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संपादक के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के पे बैंड में 19 मई, 2016 से रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8008/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत निदेशक ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त सचिव के पद के साथ सम्बद्ध 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 10,000/- रुपये के पे बैंड में 29 मार्च, 2016 से रखती हैं :-

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु
2. श्री डी. एस. मल्हा

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8009/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत अपर निदेशक ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत निदेशक के पद के साथ सम्बद्ध 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के पे बैंड में 29 मार्च, 2016 से रखती हैं :-

1. श्री राजेश रंजन कुमार
2. श्री राजू श्रीवास्तव
3. श्री पी. सी. चौल्डा

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8010/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री संजीव शर्मा, अपर निदेशक जो वर्तमान में नौरु की संसद में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को

समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत निदेशक के पद के साथ सम्बद्ध 37,400—67,000/— रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/— रुपये के पे बैंड में 29 मार्च, 2016 से रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8011/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत उप सचिव ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से अपर निदेशक के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/— रुपये के पे बैंड में रखती हैं :-

क्रम सं.	नाम	समयमान स्थापन की प्रभावी तिथि
1.	श्रीमती रीना गोपालकृष्णन	11.04.2016
2.	श्रीमती भारती संजीव टुटेजा	11.04.2016
3.	श्रीमती अर्चना पठानिया	11.04.2016
4.	श्री सी. कल्याणसुंदरम	19.05.2016

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8012/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री शिवानंद, उप सचिव जो वर्तमान में माननीय संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत उप सचिव के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में 11 अप्रैल, 2016 से रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8013/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत उप सचिव ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत उप सचिव के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में उनके नाम के सामने दी गई तिथि से रखती हैं :-

क्रम सं.	नाम	समयमान स्थापन की प्रभावी तिथि
1.	श्री रमेश चन्द वाधवा	11.04.2016
2.	श्री टीका राम नौरियाल	19.05.2016

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8014/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री आकिल नफीस, सहायक निदेशक (सुरक्षा) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में 04 जनवरी, 2016 से रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 28 जून 2016

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8015/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री गोर्धन लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अपर निदेशक (सुरक्षा) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/— रुपये के पे बैंड में 20 जून, 2016 से रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8016/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री रवि गुप्ता, सहायक निदेशक (सुरक्षा) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में 20 जून, 2016 से रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ-41/18/2016/जीएन-8017/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/— रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री नरेश कुमार, सुरक्षा अधिकारी को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत सहायक निदेशक (सुरक्षा) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपये के पे बैंड में 20 जून, 2016 से रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 29 जून 2016

सं. एफ.15/10/2014/जीएन-8018/एएन-1—श्री शिव नाथ मिश्र को 12 मई, 2016 से प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2016 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति (श्री भूपेन्द्र यादव) के निजी स्टॉफ में 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— के पे बैंड में वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया जाता है।

2. श्री शिव नाथ मिश्र की वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्ति सेवाधृति आधार पर और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के वर्तमान सभापति के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सह विस्तारी होगी।

3. उन्हें सभापति, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2016 संबंधी संयुक्त समिति के निजी सचिव के रूप में अभिहित किया जाएगा।

4. अधिसूचना सं. जीएन-7986 दिनांक 25 मई, 2016 के द्वारा श्री शिव नाथ मिश्र को प्रदत्त परिसमापन अवधि को घटाकर 13 दिन कर दिया गया है (अर्थात् 11 मई, 2016 तक)। उपरोक्त अधिसूचना को तदनुसार संशोधित किया गया है।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 30 जून 2016

सं. पी. एफ.1345-आर(7)/जीएन-8027/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती अरुणा वशिष्ठ, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) 30 जून, 2016 के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गई हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. पी. एफ.1496-आर(7)/जीएन-8030/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर. एस. पंवार, अपर निदेशक (सुरक्षा) 30 जून, 2016 के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. पी. एफ.1520-आर(7)/जीएन-8031/एएन-1/2016—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री कैलाश चन्दर मीणा, सहायक निदेशक (सुरक्षा-टी एस पी) 30 जून, 2016 के अपराहन से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2016

सं. एफ./23/24/2015/जीएन-8036/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री गोर्धन लाल मीणा, संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) को 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/— रुपये के पे बैंड में अपर निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में 02.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ./23/24/2015/जीएन-8037/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री आकिल नफीस, संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) को 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/— रुपये के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में 02.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ./23/24/2015/जीएन-8038/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री के. पी. बालियान, सहायक निदेशक (सुरक्षा-टीपीएस) जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड (श्री रघुबर दास) के निजी स्टाफ में प्रतिनियुक्ति तथा सह विस्तारी आधार पर निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपये के पे बैंड में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में 02 जुलाई, 2016 से अगले आदेशों तक प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान करती हैं।

2. वह सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में श्रीमती अंजली भदोला से वरिष्ठ लेकिन श्रीमती वीना पोखरियाल से कनिष्ठ होंगे।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ./23/24/2015/जीएन-8039/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्रीमती अंजली भदोला, सहायक निदेशक (सुरक्षा-टीपीएस) को 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/— रुपये के पे बैंड में संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में 02.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. एफ./23/24/2015/जीएन-8040/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित वरिष्ठ सुरक्षा सहायकों को 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/— रुपये के पे बैंड में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में नीचे दर्शाए गए क्रम में 02.07.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं :-

1. श्रीमती चारुलता कपिल
2. श्री असित नरजिनरी
2. वे सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2016

सं. एफ.15/25/जीएन-8041/2015/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, दिनांक 27.11.2015 से 29.11.2015 तक आयोजित वक्तृता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साथ-साथ भाषांतरण परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर श्री कल्पेश कुमार रमनलाल परमार के संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-दो (गुजराती) के पद पर चयन के पश्चात्, उन्हें 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/— रुपये के पे बैंड में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-दो में स्थानापन्न आधार पर 23 मई, 2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. वह 23 मई, 2016 से 22 मई, 2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

3. संसदीय भाषांतरकार के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता दिनांक 20 दिसम्बर, 2003 के आरएंडसीएस आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2016

सं. एफ.15/28/2014/जीएन-8044/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, श्री अजय सिंह को माननीय उपाध्यक्ष लोक सभा (डॉ. एम. तम्बिदुरै) के निजी स्टाफ में 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/— रुपये के पे बैंड में 01.6.2016 से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

2. माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा (डॉ. एम. तम्बिदुरै) के निजी स्टाफ में उनकी नियुक्ति सेवाधृति आधार पर और माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा के प्रसाद पर्यन्त या सहविस्तारी आधार पर होगी।

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2016

सं. पीएफ 1769-आर (3)/जीएन-8052/एएन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत श्री सतीश कुमार सेमवाल, सुरक्षा अधिकारी (तकनीकी) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत सहायक निदेशक (तकनीकी) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के पे बैंड में 26 जुलाई, 2016 से रखती हैं।

2. श्री सतीश कुमार सेमवाल का समयमान स्थापन दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका (सं. डब्ल्यू पी (सी)2240/2012) के निर्णय के अधधीन है।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. पीएफ 1770-आर (3)/जीएन-8053/एएन-1/2016—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत निम्नलिखित सुरक्षा अधिकारियों (तकनीकी) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत सहायक निदेशक (तकनीकी) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के पे बैंड में 26 जुलाई, 2016 से रखती हैं:-

1. श्रीमती सुमन कुमारी
2. श्री देबाशीष चटर्जी

संजय सेठी, उप सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2016

सं. 41/18/2016/जीएन-8057/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री हिमाद्रि नाथ पंडित, संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) को 1-8-2016 से समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत अपर निदेशक (सुरक्षा) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के पे बैंड में रखती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. 41/18/2016/जीएन-8058/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री राजीव शर्मा-I, सहायक निदेशक (सुरक्षा) को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के पे बैंड में 1-8-2016 से नियुक्त करती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

सं. 41/18/2016/जीएन-8059/एएन-1—अध्यक्ष महोदया, 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के पे बैंड में कार्यरत, श्री जागीर सिंह, सुरक्षा अधिकारी जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) के पद के साथ सम्बद्ध 15,600—39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के पे बैंड में 1-8-2016 से नियुक्त करती हैं।

संजय सेठी, उप सचिव

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर—560 231, दिनांक 7 नवम्बर 2016

सं. 5/1(1)/2016—राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1.	बाबु आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
2.	नवले सोनल गिरधरलाल	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
3.	साईराजन के.के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
4.	सत्यनारायणा कुमारी बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
5.	सजीत पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
6.	एम. श्रीकांत	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
7.	बी. कल्पना	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
8.	पी. सतीश	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
9.	शिवानी सक्सेना	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
10.	महानंद मृत्युंजय	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
11.	शांतला एस.एच.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.एफ.
12.	रविकुमार के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
13.	मानस रंजन दास अधिकारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
14.	गोविंद राव येन्नी	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
15.	विजय शंकर राय	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
16.	शशांक श्रीवास्तव	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
17.	सौरभ गुप्ता	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
18.	पी. विजय गणेश	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
19.	प्रियंका मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
20.	रजिता चिंतमरेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
21.	हरि कृष्ण तोटा	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
22.	विघ्नेनश बाबु एम.जे.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
23.	रश्मि बेहेरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
24.	डॉ. एम.सी. रामदेवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.

क्र.सं.	नाम श्री / श्रीमती / कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
25.	राधाकृष्ण वी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.एफ.
26.	अभिमन्यू सिंह	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
27.	प्रतिभा श्रीवास्तव	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
28.	धीरज कुमार	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
29.	प्रियंका यादव	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
30.	सौमाजीत चटर्जी	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
31.	चि. फणेन्द्र राव	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
32.	वरुण गुप्ता	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
33.	मनमोहन वी. कामत	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
34.	रीमा घोष	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
35.	रघुनंदन के.के.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.एफ.
36.	रवि किरण एन.के.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.एफ.
37.	पारुल	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
38.	दिनेश धनखड़	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
39.	प्रिंस अग्रवाल	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
40.	अभिषेक कुमार सिंह	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
41.	स्मृति रंजन पाणिग्रही	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.
42.	शशांक एस.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
43.	सात्विक सुमन दास	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
44.	भोवड प्रियंका बी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
45.	शुभजीत मजुमदार	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
46.	आदित्य करण	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
47.	दिव्यरंजन सेनापति	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
48.	रवि रामा राव	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.ई.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.एफ.
49.	आर. आदित्य	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
50.	डॉ. के. विद्याशंकर	चिकित्सा. अधिकारी—एस.एफ.	चिकित्सा. अधिकारी—एस.जी.
51.	दीपिका जिंदल	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.
52.	सुधा पांडे	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक / इंजीनियर—एस.डी.

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
53.	प्रेरणा खाटीवाड़ा	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.
54.	डैफिनी मनोजा जे.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.
55.	श्रीनिधि एम.एस.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस.ई.

के. वी. लक्ष्मण कुमार, उप सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2016

सं. ए. 12025(i)/1/2007—प्रशा.—I(वि.वि.)—राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर 7वें सी.पी.सी. के अनुसार पे मैट्रिक्स के लेवल 12 [पूर्व संशोधित—रुपए 15,600—39,100/— के वेतन बैंड और रुपए 7,600/— के ग्रेड वेतन] में दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

1. श्रीमती रेनु सिन्हा
2. श्री टी. एस. मुरलीधरन

2. यह तदर्थ नियुक्ति उपर्युक्त अधिकारियों को उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

सं. ए. 32013/8/2014—प्रशा.I (वि.वि.)—विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के निम्नलिखित सहायक विधायी परामर्शियों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर 7वें सी.पी.सी. के अनुसार पे मैट्रिक्स के लेवल 12 [पूर्व संशोधित—रुपए 15,600—39,100/— के वेतन बैंड—3 और रुपए 7,600/— के ग्रेड वेतन] में दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

- (i) श्री ईश्वर चंद्र शर्मा
- (ii) श्री के. श्रीमन्नारायण
- (iii) श्री वाई श्रीनिवासा राव

2. उक्त अधिकारी, इस विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर उनकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2016

सं. ए. 12025(i)/1/2014—प्रशा.—I(वि.वि.)—पार्ट—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सहायक विधायी परामर्शी श्रीमती सुनीता आनंद को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर पे मैट्रिक्स के लेवल 12 [पूर्व संशोधित—रुपए 15,600—39,100/— के वेतन बैंड—3 और रुपए 7,600/— के ग्रेड वेतन] में दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 की पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती सुनीता आनंद 24 अक्टूबर, 2016 से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2016

सं. ए. 12023(1)/9/2015—प्रशा. III (वि. का.)—राष्ट्रपति, श्रीमती रानो जैन का दिनांक 11 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न से आयकर अपीलीय अधिकरण के लेखा सदस्य के पद से त्याग-पत्र स्वीकार करते हैं।

सुनील सचदेवा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2016

सं. ए. 32013/15/2014—प्रशा. I—राष्ट्रपति, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई), के आधार पर वर्ष 2012 और 2013 के लिए तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6.2.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/5/2015—सीएस—1(एस), दिनांक 9.2.2015 के संख्या 6/6/2015—सीएस—आई(एस), दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/7/2013—सीएस—1(एस) दिनांक 4.3.2014 के का.सं. 6/7/2015—सीएस—आई(एस) तथा दिनांक 31.8.2015 के सं. 6/10/2015—सीएस—आई(एस) के अनुसार वरीयता कोटा के विरुद्ध वर्ष 2012, 2013, 2014 तथा 2015 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (सी एस एस) गृह मंत्रालय के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों, तदर्थ/सहायक अनुभाग अधिकारियों को गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित आधार पर, 4,800/- रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/-) में नियुक्त करते हैं :-

(i) वर्ष 2012 के लिए अनुभाग अधिकारी चयन सूची (वरीयता कोटा):

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	जन्म तिथि	श्रेणी	सहा. अनु. अधि. चयन सूची वर्ष	एसएसओ एससीएसएल सं.
1.	एलिजाबेथ कुजूर	13.10.61	अ.ज.जा. मेरिट पर	1998	053
2.	नरेन्द्र कुमार यादव	25.10.59	सामान्य	2002	071
3.	कामेश्वर प्रसाद साह	23.03.61	अ.ज.जा. मेरिट पर	2002	156
4.	सतीश चंद नवोरिया	05.01.61	अ.जा.	2003	781
5.	मिथलेश कुमारी	23.12.60	अ.जा.	2003	823
6.	शिव नारायण	19.11.58	अ.जा.	2003	825
7.	सोम दत्त	01.07.61	अ.जा.	2003	832

(ii) वर्ष 2012 के लिए अनुभाग अधिकारी चयन सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	जन्म तिथि	श्रेणी	सहा. अनु. अधि. चयन सूची वर्ष	एसएसओ एससीएसएल सं.
1.	धीरज कुमार सिंह	07.07.79	सामान्य	2012	067
2.	सत्य. प्रकाश	15.10.79	अ.पि.व.	2012	244
3.	सूर्य प्रताप सिंह	05.12.71	सामान्य	2012	245
4.	सत्य. देवन के.	25.07.62	सामान्य	2012	282

5.	सी. आर. चित्रा	10.05.62	सामान्य	2012	285
6.	प्रशांत कुमार बिस्वास	01.07.57	अ.जा.	2012	320
7.	चेतराम मीना	01.09.79	अ.ज.जा	2012	321
8.	संतोष कुमार भागव	10.02.81	अ.जा	2012	347
9.	तिलक राज	20.12.61	अ.जा	2012	362

(iii) वर्ष 2013 के लिए अनुभाग अधिकारी चयन सूची (वरीयता कोटा):

क्रम सं	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	जन्म तिथि	श्रेणी	सहा. अनु. अधि. चयन सूची वर्ष	एसओ एससीएसएल सं.
1.	पी. अच्युतन कुट्टी	01.11.56	सामान्य	2003	500
2.	डी. बनर्जी	26.05.59	सामान्य	2003	582
3.	प्रदीप भट्टाचार्य	17.08.57	सामान्य	2003	595
4.	रश्मि सतपती	09.12.57	सामान्य	2003	620
5.	मंजुला वर्मा	10.07.60	सामान्य	2003	638
6.	निर्मल किशोर	01.07.62	सामान्य	2003	676

(iv) वर्ष 2013 के लिए अनुभाग अधिकारी चयन सूची:

क्रम सं	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	जन्म तिथि	श्रेणी	सहा. अनु. अधि. चयन सूची वर्ष	एलडीसीई में रैंक
1.	इन्द्र मोहन	31.05.82	सामान्य	2013	001
2.	आशीष बाथम	16.11.82	सामान्य	2013	004
3.	मोहतोसीफ. हुसैन	06.01.82	सामान्य	2013	005
4.	राकेश कुमार	25.08.83	सामान्य	2013	009
5.	मनोज कुमार सिंह	18.03.82	सामान्य	2013	011
6.	हरि नाथ प्रसाद	03.01.78	सामान्य	2013	022
7.	संदीपन घोष	22.04.81	सामान्य	2013	030
8.	संतोष कुमार	10.09.78	सामान्य	2013	035
9.	दीपक कुमार सिंह	05.01.81	सामान्य	2013	051
10.	सरिता कुमारी	24.07.83	सामान्य	2013	063
11.	बिजेन्द्र सिंह	04.11.83	सामान्य	2013	086
12.	अनुराग सक्सेना	07.06.82	सामान्य	2013	096

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	जन्म तिथि	श्रेणी	सहा. अनु. अधि. चयन सूची वर्ष	एलडीसीई में रैंक
13.	तमोघना चौधरी	13.09.82	सामान्य	2013	099
14.	रुचिका सिंह	23.02.84	सामान्य	2013	107
15.	विजय शंकर तिवारी	14.12.81	सामान्य	2013	134
16.	गौरव कुमार	31.03.80	अ.जा.	2013	145
17.	आनंद कुमार गौतम	21.06.86	अ.जा.	2013	148
18.	कुलदीप कुमार	18.11.78	अ.जा.	2013	158

(v) वर्ष 2014 के लिए अनुभाग अधिकारी चयन सूची (वरीयता कोटा):

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	जन्म तिथि	श्रेणी	सहा. अनु. अधि. चयन सूची वर्ष	एसओ एससीएसएल सं.
1.	बृज पॉल	27.04.57	सामान्य	2003	810
2.	सतीश मोहन कपूर	19.05.60	सामान्य	2003	968
3.	नीलम शर्मा	08.02.60	सामान्य	2003	974
4.	मेरी जॉन्स रतन सिंह	01.09.58	सामान्य	2003	976
5.	विजय कुमारी सक्सेना	01.02.58	सामान्य	2003	978
6.	ललिता रावल	10.12.62	जनरल	2003	979
7.	अनंता कुमार सरकार	15.12.56	अ.जा. मेरिट पर	2003	984
8.	घनश्याम दास निम	01.01.57	अ.जा. मेरिट पर	2003	985
9.	कमलेश रल्हन	17.08.57	सामान्य	2003	988
10.	सैयद जाकी अहमद	21.04.58	सामान्य	2003	998
11.	सुरिन्द्र कौर	15.04.58	अ.जा.	2003	1005
12.	सुमन बाला मेहता	02.06.58	सामान्य	2003	1015
13.	दया रानी अरोड़ा	13.03.58	सामान्य	2003	1022
14.	सुरेश कुमार	21.03.58	अ.जा.	2003	1033

(vi) वर्ष 2015 के लिए अनुभाग अधिकारी (वरीयता कोटा):

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी)	जन्म तिथि	श्रेणी	सहा. अनु. अधि. चयन सूची वर्ष	एसओ एससीएसएल सं.
1.	ए. नारायणन	16.06.60	सामान्य	2003	1085
2.	देवेन्द्र कुमार	11.09.57	सामान्य	2003	1090

3.	सुनीता छाबड़ा	11.04.61	सामान्य	2003	1171
4.	पवन कुमार	24.07.62	सामान्य	2003	1196
5.	अनिल कुमार	26.06.60	सामान्य	2003	1249
6.	किरण लाल	23.07.58	सामान्य	2003	1253
7.	के.जे. सन्नी	27.05.62	सामान्य	2003	1255
8.	सुरिन्द्र सिंह रावत	23.07.63	सामान्य	2003	1295
9.	अरुण चक्रवर्ती	24.11.57	सामान्य	2003	1321
10.	सुजाता प्रदीप	30.05.60	सामान्य	2003	1335
11.	शशि वधवा	25.11.60	सामान्य	2003	1336
12.	माया सती	24.03.63	सामान्य	2003	1340
13.	वनिता अरोड़ा	10.09.60	सामान्य	2003	1342
14.	के.ननरसिम्ह. वेंकटा.	15.05.57	सामान्य	2003	1346
15.	मधुबाला जुनेजा	16.11.61	सामान्य	2003	1350
16.	सुनीता खनीजा	08.04.58	सामान्य	2003	1353
17.	वी. देवदास	04.02.63	सामान्य	2003	1379
18.	राजेन्द्र कुमार	27.06.62	अ.जा. मेरिट पर	2003	1447
19.	शशि शर्मा	13.10.62	सामान्य	2003	1458
20.	सरबनी भट्टाचार्य	06.12.62	सामान्य	2003	1482
21.	हरीश चन्द्र बब्बर	09.01.57	सामान्य	2003	1484
22.	रेमा सुभाष	23.12.58	सामान्य	2003	1511
23.	एम. सिराजुद्दीन.	13.01.57	सामान्य	2003	1516
24.	पी. एस. आनन्द	13.11.56	अ.जा.	2003	1523
25.	बी. एन. मूर्ती	15.10.56	सामान्य	2003	1537
26.	पुष्पलता विज	27.05.59	सामान्य	2003	1575
27.	गोविन्द वल्लभ पांडे	03.12.62	सामान्य	2003	1584
28.	सतबीर सिंह	04.08.63	अ.जा.	2003	1629
29.	दर्शन लाल	14.09.60	अ.जा.	2003	1864
30.	सूरज भान	04.02.58	अ.जा.	2003	1924

2. सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के विरुद्ध वर्ष 2012 तथा 2013 के लिए अनुभाग अधिकारी चयन सूची (एसओएसएल) में शामिल नियुक्ति निम्नलिखित अदालती मामलों तथा किसी अन्य संबंधित मामलों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों पर निर्भर करेगा :

- दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्रीमती शांति लाल बौरासी एवं अन्य मामले में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 5080/2014
- दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्रीमती एम आर मीना एवं अन्य मामले में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 5793/2014

- iii. दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बनाम श्री राजीव आर. एवं अन्य. मामले में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 6468/2014

सुरोजित घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2016

सं. आई-14011/27/2016-आईपीएस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 23.09.2016 को चयन समिति की दिनांक 12.08.2016 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2014 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा में कुल 7 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु केरल पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2014

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	अशोकन बी.	13.03.1961
2.	शाम क्रेस्टी डेनियल	25.05.1960
3.	राधाकृष्णन के.	20.06.1961
4.	एलेक्स के. जान	17.01.1961
5.	वेणुगोपाल के. बी.	30.05.1960
6.	जकारिया जार्ज	03.01.1961
7.	मोहम्मद रफीक वी. एम.	25.05.1960

कुलदीप कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-1)

सं. आई-14011/27/2016-आईपीएस-1(II)—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत केरल संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2014

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	अशोकन बी.	13.03.1961
2.	शाम क्रेस्टी डेनियल	25.05.1960
3.	राधाकृष्णन के.	20.06.1961
4.	एलेक्स के. जान	17.01.1961
5.	वेणुगोपाल के. बी.	30.05.1960
6.	जकारिया जार्ज	03.01.1961
7.	मोहम्मद रफीक वी. एम.	25.05.1960

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

कुलदीप कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-1)

दिनांक 11 नवम्बर 2016

सं. आई-14011/17/2016-आईपीएस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 20.10.2016 को चयन समिति की

दिनांक 10.06.2016 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2014 एवं 2015 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के सयुक्त असम मेघालय संवर्ग के असम खण्ड में कुल 3 एवं 2 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2014

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.*	रनदीप कुमार बरुवा	04.11.1966
2.	कंगन ज्योति सैकिया	01.12.1968
3.	इन्द्रानी बरुवा	21.06.1970

* क्रम संख्या 1 पद दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामले के निपटान एवं राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप में शामिल किया गया है ।

चयन सूची-2015

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
0A@*	रनदीप कुमार बरुवा	04.11.1966
1.	जितेन्द्र डोले	28.12.1959
2.	बिवेकानन्द दास	29.12.1961

@ क्रम संख्या ओ.ए. पर दिये गये नाम को चयन सूची में सामान्य आकार के अतिरिक्त भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 (5) के द्वितीय उपबंध के अन्तर्गत शामिल किया गया है ।

*क्रम संख्या 1 पद दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामले के निपटान एवं राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप में शामिल किया गया है ।

कुलदीप कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-1)

सं. आई-14011/17/2016-आईपीएस-1(II)-राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत सयुक्त असम मेघालय संवर्ग का असम खण्ड प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2014

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	कंगन ज्योति सैकिया	01.12.1968
2.	इन्द्रानी बरुवा	21.06.1970

चयन सूची-2015

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	जितेन्द्र डोले	28.12.1959
2.	बिवेकानन्द दास	29.12.1961

4. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी ।

कुलदीप कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-1)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

सं. 14012/10/2012-अ.भा.से.III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2008 के गुजरात संवर्ग के सदस्य श्री उदित अग्रवाल को दिनांक 01.09.2010 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2016

सं. 04/2016 (फा. सं. ए-38014/10/2016-प्रशा.क-राजस्व विभाग में प्रधान स्टाफ अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी श्री विजय कुमार शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2016

अधिसूचना सं. 15/2016 (फा सं. 6/2606/2011/पीईएन/एचआरडी-I/3988)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस महानिदेशालय में कार्यरत श्री ए. के. त्यागी, विदेश व्यापार विकास अधिकारी दिनांक 31.10.2016 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

निर्मल कुमार, उप महानिदेशक
विदेश व्यापार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 अक्टूबर 2016

सं. ए-19013/01/2012-स्थापना—महामहिम राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत श्री ई.पी. मुरलीधरन (सीएसएल सं. 4912) को दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर सरकारी सेवा से सहर्ष सेवानिवृत्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 नवम्बर 2016

सं. ए-19011(2)/95-स्थापना—श्री कोराड़ा श्रीनिवास राव, वैज्ञानिक 'बी', वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की दिनांक 28/10/2016 को मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप, उनका नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की नामावली से दिनांक 29/10/2016 (पूर्वाह्न) से हटा दिया गया है।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2016

सं. ए.11014/01/2011—डीएफक्यूसी सा. का. नि.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता वर्ग, III और वर्ग IV, भर्ती नियम 1972 को, जहां तक उसका सम्बन्ध

ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता, में प्रयोगशाला सहायक और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता (प्रयोगशाला सहायक और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, पे मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे—मैट्रिक्स में स्तर	चयन या गैर—चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु—सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित आयु—सीमा और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय सहायक एवं सूचना अधिकारी	1* *(2016) (कार्यभार बदल सकती है के आधार पर)	सामान्य केन्द्रीय सेवा—समूह ख राजपत्रित, गैर सचिवालयीय	पे—मैट्रिक्स में लेवल—7 (संशोधित)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा वभिन्नि पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा ।
---	--------------------------------	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	(i) पदोन्नति (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	पदोन्नति श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा के साथ पे—मैट्रिक्स (संशोधित) के लेवल—6 में पुस्तकालय और सूचना सहायक तथा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री हैं। टिप्पण : जब तक पुस्तकालय और सूचना सहायक (पु. और सू. स.) के पद का वर्तमान पदधारी पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी (पु. और सू. स.) के पद पर प्रोन्नति के लिए योग्य नहीं हो जाता है, तब तक पद वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 (संशोधित) में प्रचालित किया जाएगा। भर्ती की पद्धति के रूप में प्रोन्नति उस समय प्रचालित की जाएगी जब पुस्तकालय सूचना सहायक के पद पर पदधारी उचित रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा योग्य घोषित किया जाएगा है और इन नियमों के स्तंभ (11) के अधीन आवश्यक अर्हताएं के अंतर्गत यथापरिभाषित अनिवार्यता के रखने पर आधारित पुस्तकालय सहायक और सूचना अधिकारी को अपग्रेड किए गए पद पर प्रोन्नत किया जाएगा है। सेवा से पद त्याग या अन्यथा की स्थिति में, पद रिक्त करने वाले विद्यमान पदधारी के पद को उन्नत वेतन मैट्रिक्स, के लेवल 7 (संशोधित) में प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के माध्यम से भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्प—कालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 (संशोधित) या समतुल्य में उस पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और

			(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय या सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री। (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का पेशेवर अनुभव। वांछनीय :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय या सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। टिप्पण 1 :-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 1 :-प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष।
--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति पुष्टि समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. औषधि महानियंत्रक —(भारत)—अध्यक्ष 2. निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता—सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन), सीडीएससीओ (एचक्यू),—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

नई दिल्ली—110023, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

सं. ए.20010/4/2016—ई—I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में और मंत्रिमंडल नियुक्ति संबंधी समिति (एसीसी) के अनुमोदन पर डॉ. सिंगरे सोरेन ने 24 अक्टूबर, 2016 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक केंद्रीय सचिवालय सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के अनुसार आयुष मंत्रालय में 1, 44,200—2,18,200/— रुपए के संशोधित वेतन मैट्रिक्स + यथादेय प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित लेवल-14 में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

यश वीर सिंह, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

सं. ए-19012/10/2015 आ.प्र.—कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी), के अनुमोदन के पश्चात डॉ. सुरेश पाल, सदस्य (पदधारी), कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को निदेशक, आईसीएआर, राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान (एनआईएपी), नई दिल्ली के पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए, दिनांक 17.10.2016 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. डॉ. सुरेश पाल के पास 17.10.2016 (अपराह्न) से अगले छह महीने की अवधि के लिए, या नियमित पद पर नियुक्ति तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए सदस्य (पदधारी) सीएसीपी के पद का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।

वी. सुरेन्द्र, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

सं. ए-19011/2/2010—स्थानपना—श्री चन्द्र, प्रकाश बडोला, निदेशक (सीएसएस), संस्कृति मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होंगे।

मनोज देहुरी, अवर सचिव

अल्प कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 24 अक्टूबर 2016

सं. ए-19011/13/2016—स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.09.2016 के आदेश सं. 5/7/2015—सीएस—आई (यू) के अनुसरण में, तथा श्री अनुराग शर्मा (सीएसएल सं. 6620), अवर सचिव को पोत परिवहन मंत्रालय से कार्य मुक्त किए जाने पर दिनांक 06.10.2016 (पूर्वाह्न) से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नामावली में शामिल किया जाता है।

मैत्रेयी राय, निदेशक

सं. ए-19011/13/2016—स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.09.2016 के आदेश सं. 5/7/2016—सीएस—आई (यू) के अनुसरण में, सुश्री हेम लता (सीएसएल सं. 9281), को दिनांक 05.10.2016 (पूर्वाह्न) से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड— I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, निदेशक

सं. ए-19011/13/2016—स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.09.2016 के आदेश सं. 5/7/2016—सीएस—आई (यू) के अनुसरण में, श्री कुल भूषण सिंह (सीएसएल सं. 9360), को दिनांक 30.09.2016 (पूर्वाह्न) से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड— I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मैत्रेयी राय, निदेशक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

नई दिल्ली—110003, दिनांक 20 अक्टूबर 2016

सं. 2/1/एनसीएससी/2014—प्रशा.—अनुसंधान अधिकारी (संयुक्त संवर्ग) के पद पर नियमित आधार पर उनकी पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित मूल वरिष्ठ अन्वेषकों (संयुक्त संवर्ग) को अनुसंधान अधिकारी (संयुक्त संवर्ग) के पद पर उनके नामों के आगे दर्शायी गई तारीखों से पे-बैंड-2 (9,300—34,800/— रुपए) ग्रेड पे 4,800/— रुपए में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	चयन सूची
1.	श्री राकेश कुमार शर्मा	23.08.2016 (अपराहन)	2007—08
2.	सुश्री दीपिका खन्ना	23.08.2016 (अपराहन)	2007—08
3.	श्री सुनील कुमार सिंह	23.08.2016 (अपराहन)	2009—10
4.	श्री प्रदीप सिंह मेहता	23.08.2016 (अपराहन)	2010—11
5.	श्री दुलाल कृष्णा बाला	23.08.2016 (अपराहन)	2011—12

एस. के. दुबे, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2016

सं. ईआरबी-1/2016/2/77—राष्ट्रपति जी, श्री बी. एन. महोपात्रा, एचएजी/आईआरएस की ग्रेड रु. 75,500—80,000/— (पूर्व संशोधित) में पदोन्नति होने पर उन्हें 01.11.2016 के पूर्वाहन से अपर सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. के. वर्मा, सचिव
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2016

सं. ए-32012/3/2016—एम ए—राष्ट्रपति, श्री अजितकुमार सुकुमारन को रु. 37,400—67,000/— + ग्रेड वेतन रु. 10,000/— के वेतनमान में प्रधान अधिकारी (इंजीनिरिंग)—सह-संयुक्त निदेशक (तकनीकी) के पद पर नौवहन महानिदेशालय के अंतर्गत समुद्रीय वाणिज्य विभाग, कोचि के कार्यालय में 20.10.2016 (पूर्वाहन) कोचि में पदोन्नति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सतीश कुमार, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

सं. ए-32013/1/2014—प्रशा.—1—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28/09/2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2016—सीएस-1(यू) के अनुसरण में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को सीएसएस के ग्रेड—I, अवर सचिव (तदर्थ) में दिनांक 29.9.2016 से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	सीएसएल नं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	वर्तमान पद	जन्म की तारीख
1.	9197	श्री के. दिनाकर राज	अवर सचिव	12.02.1959
2.	9249	श्री जगदीश प्रसाद	अवर सचिव	10.04.1962
3.	9269	श्री धर्मवीर सोनी	अवर सचिव	30.11.1974
4.	9283	सुश्री नीता आर्य	अवर सचिव	02.05.1964

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 8th November 2016

No. 21/3187/2006-PME—The President is pleased to extend the tenure of Central Deputation of Shri N. C. Jhingta, Area Organizer of Sashastra Seema Bal working as Secretary to former Prime Minister (Shri Atal Bihari Vajpayee) beyond 23.05.2016 and for a period up to 22.05.2018.

A. K. DAS, Under Secretary

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110011, the 17th March 2016

No.PF.2507-R(3)/GN-7951/AN-I/2016—Shri Ajay Anand, IPS (UP : 92) who is presently working as Joint Secretary (Security) in this Secretariat on deputation basis is relieved of his duties with effect from the forenoon of 17th March, 2016 and, thereafter, his services are placed back at the disposal of his cadre controlling authority i.e., Ministry of Home Affairs.

2. The existing tenure of deputation of Shri Ajay Anand in Lok Sabha Secretariat shall be deemed to have been extended with effect from 16.01.2016 upto 16.03.2016(AN).

3. Shri Ajay Anand is granted Earned Leave for 58 days w.e.f. 17.03.2016 to 13.05.2016. He is advised to report for duty in the Ministry of Home Affairs after expiry of said leave.

P.C. KOUL, Joint Secretary

No.PF.2507-R(3)/GN-7952/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri Yogesh Deshmukh, IPS(MP:95), as Joint Secretary (Security) in the pay band of Rs. 37400—67000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 10000/- in Lok Sabha Secretariat on deputation basis with effect from 17th March, 2016(FN) upto 24th January, 2017 or until further orders, whichever is earlier.

P.C. KOUL, Joint Secretary

The 9th May 2016

No.F.23/22/2015/GN-7977/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri R.S.Kambo, Joint Secretary, to the grade of Additional Secretary in the HAG scale of Rs.67000-79000 with effect from 8th May, 2016, until further orders.

P.C. KOUL, Joint Secretary

No.F.23/22/2015/GN-7978/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following 02 officers in the grade of Director to the grade of Joint Secretary in the pay band of Rs.37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs.10000, in the order as shown below, with effect from 8th May, 2016, until further orders:-

1. Smt.Vandna Trivedi
2. Shri S.C.Chaudhary

P.C. KOUL, Joint Secretary

The 18th August 2016

No.F.15/08/2014/GN-8067/AN-I—In continuation of earlier Notification No.F.15/08/2014/GN-7767/AN-I dated 11th June, 2015, the Speaker is pleased to appoint Dr. Vatsala Joshi, as Officer on Special Duty (Research) to Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Smt. Sumitra Mahajan) in pay band of Rs.37400-67000(PB-4) plus grade pay of Rs.8700 on deputation and co-terminus basis with effect from 6th August, 2016 until further orders.

2. The appointment of Dr. Vatsala Joshi on the personal staff of Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Smt. Sumitra Mahajan) will be on tenure basis and during the pleasure of Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

P.C. KOUL, Joint Secretary

New Delhi-110001, the 27th January 2016

No.F.23/02/2015/GN-7926/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Khakhai Zou, Deputy Secretary, to the grade of Additional Director in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 with effect from 21st January, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/2/2015/GN-7927/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Ginsuanlian Guite, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer, to the grade of Under Secretary in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 with effect from 21st January, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/14/2015/GN-7928/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistants to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.5400 with effect from 21st January, 2016, until further orders:-

1. Smt. Sunita Rani
2. Shri Dinesh Chandra Bughani

2. Both the aforesaid persons will be on probation in the grade of Executive/ Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of 2 years with effect from 21.01.2016 to 20.01.2018.

3. Their inter se seniority in the grade of Executive/ Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 1st February 2016

No.PF.276-R(3)/GN-7929/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Shri Suresh Chander, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer, who has been placed in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) plus grade pay Rs.6600 attached to the post of Under Secretary with effect from 15th April, 2014 under the Time Scale Placement Scheme-2011, has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.934-R(3)/GN-7930/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation Shri B.R. Venkataraman, Joint Director (Reporting), who has been granted Time Scale Promotion in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 with effect from 25th November, 2010, has retired from service with effect from the afternoon of 31st January, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.15/10/2014/GN-7931/AN-I—In continuation of this Secretariat Notification No.F.15/10/2014/GN-7810/AN-I dated 29.07.2015, the term of deputation of Shri O.P.S. Marathia, Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistant who is presently working as Senior Private Secretary on the personal staff of Chairperson, Railway Convention Committee (Shri Bhartruhari Mahtab) on deputation basis, is extended for a period of six months with effect from 29.01.2016 to 28.07.2016 or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1432-R(3)/GN-7932/AN-I/2015—Shri Vikas Nema, Assistant Editor, drawing pay in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400/- is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 1st February, 2016 and thereafter his services are placed at the disposal of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat for his appointment as Under Secretary on deputation basis for a period of two years i.e., upto 1st February, 2018 or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 5th February 2016

No.PF.291-R(3)/GN-7933/AN-I/2016—On reversion from deputation from the post of Under Secretary in the Ministry of External Affairs, Shri Sujay Kumar has resumed duties in this Secretariat as Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer with effect from the forenoon of 1st February, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 12th February 2016

No.F.15/10/2014/AN-I/GN-7934—Shri P. Loganathan, Senior Private Secretary on the personal staff of Chairperson, Committee on Rural Development (Dr. P. Venugopal), passed away on 4th February, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 15th February 2016

No.PF.2455-R(2)/2016/GN-7935/AN-I—In continuation of Notification Nos.F.15/6/GN-7271/AN-I/2013 dated 14th August, 2013, F.15/6/GN-7270/AN-I/2013 dated 14th August, 2013 and F.15/6/GN-7324/AN-I/2013 dated 30th October, 2013 respectively, the following officiating Parliamentary Interpreter Grade-II are appointed as Parliamentary Interpreter Grade-II in a substantive capacity with effect from the date mentioned against each:-

Sl. No.	Name	Date
1.	Shri Amit Anurag	27.05.2015
2.	Shri R. Rajkumar Bala Subramanian	09.05.2015
3.	Shri Manoj Kumar	11.10.2015

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 16th February 2016

No.F.23/2/2015/GN-7936/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Sujay Kumar, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer, to the grade of Under Secretary in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 with effect from 10th February, 2016, until further orders.

2. Shri Sujay Kumar shall rank senior to Smt. Sunita Sharma but junior to Shri Sreekanth S. in the grade of Under Secretary.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 18th February 2016

No. F.23/01/GN-7938/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri Chakrapani Mishra, Parliamentary Reporter Grade-I to the grade of Joint Director (Reporting) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600, with effect from 17.02.2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7939/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Additional Directors (LARRDIS) to the grade of Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs.8700 in the order as shown below, with effect from 17th February, 2016 until further orders:

1. Km. Manju Jain
2. Smt Manju Sharma
3. Km. Samita Bhowmick
4. Dr. B. C. Joshi
5. Shri Pulin B. Bhutia
6. Smt Sushma Rungta

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7940/AN-I/2016—Dr. P. J. Antony, Additional Director (LARRDIS) who is presently working as Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister of Minority Affairs (Dr. Najma Heptulla) on deputation and co-terminus basis, is granted proforma promotion to the grade of Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs.8700 with effect from 17th February, 2016 until further order.

2. He will rank senior to Shri Pulin B. Bhutia but junior to Dr. B.C. Joshi in the grade of Director(LARRDIS).

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7941/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors(LARRDIS) to the grade of Additional Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 8000 in the order as shown below, with effect from 17th February, 2016 until further orders:

1. Smt. Nalinakshi Trikha
2. Shri Mukesh Kumar Sharma
3. Dr. Ranbir Kumar
4. Smt. Musarrat Naushad
5. Shri Sanjeev Sachdeva
6. Dr. Seema Kaul Singh
7. Smt. Rachna Sharma
8. Dr. Deepak Gosain
9. Shri Prasanta Kumar Mallick
10. Shri Babulal Naik
11. Smt. Indu Goel
12. Shri Raj Kumar
13. Smt. Surinder Walia
14. Smt. Indu Bharihoke
15. Shri Satya Vijay Ram
16. Shri S. Holkhopao Baite
17. Shri S.P. Ray Choudhary

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7942/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Directors(LARRDIS) to the grade of Joint Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3)+ Grade Pay Rs. 7600 in the order as shown below, with effect from 17th February, 2016 until further orders:

1. Ms. Madhu Sharma
2. Smt. Promila Pant
3. Smt. Bela Routh
4. Smt. Nirmala Sharma
5. Smt. Kusum Rawat
6. Smt. Rashmi Kapoor
7. Smt. Lata Bansal
8. Shri Gurnam Singh
9. Shri B. D. Sharma
10. Shri Dalip Singh

11. Dr. Amar Kumar Prusty
12. Shri H. Soikholian Simte
13. Shri Baikunthanath Mohapatra
14. Shri Rajeshwar Singh

2. Their inter-se seniority in the grade of Joint Director (LARRDIS) will be regulated in terms of R&CS Order No.PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7943/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Officers to the grade of Deputy Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3)+ Grade Pay Rs. 6600 in the order as shown below, with effect from 17th February, 2016 until further orders:

1. Smt Pooja Singh
2. Shri L. Ephrii
3. Smt Neelam Balhara
4. Smt Indu Mannan
5. Smt Minakshi Sharma
6. Shri Suresh Chand
7. Shri Subhash Chand
8. Smt Seema Jain
9. Shri Ajit Chaudhary
10. Shri Jayanta Kumar Samal
11. Shri Harsh Banga

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7944/AN-I/2016—Shri Ranganathan Sivasubramania Sharma, Research/Reference Officer who is presently working as Additional Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister of Minority Affairs (Dr. Najma Heptulla) on deputation and co-terminus basis, is granted proforma promotion to the grade of Deputy Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 with effect from 17th February, 2016 until further order.

2. He will rank junior to Shri Harsh Banga in the grade of Deputy Director(LARRDIS).

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7945/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Officers to the grade of Deputy Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3)+ Grade Pay Rs. 6600 in the order as shown below, with effect from 17th February, 2016 until further orders:

1. Ms. Asha Jaipal Singh
2. Shri Neeraj Sharma

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 29th February 2016

No.PF.853-R(3)/GN-7946/AN-I/2016—On reversion from deputation from the post of Assistant Director (Administration) in Rajya Sabha Television, Rajya Sabha Secretariat, Shri Sunil Kumar Sharma has resumed duty in this Secretariat as Research/Reference Officer in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay 5400 with effect from the forenoon of 25th February, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.221-R(3)/GN-7947/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Smt. K. Rangamani Narasimhan, Deputy Secretary, has retired from service with effect from the afternoon of 29th February, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 3rd March 2016

No.F.23/03/GN-7948/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Sharma, Research/Reference Officer to the grade of Deputy Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600, with effect from 2nd March, 2016, until further orders.

2. He shall rank senior to Ms. Asha Jaipal Singh but junior to Shri Ranganathan Sivasubramania Sharma in the grade of Deputy Director (LARRDIS).

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 31st March 2016

No.PF.25-R(3)/GN-7953/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Shri V.R.Ramesh, Additional Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 31st March, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 4th April 2016

No.F.15/08/2014/GN-7955/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Pradeep Chaturvedi, Director, Rajya Sabha Secretariat as the Officer on Special Duty to Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Smt. Sumitra Mahajan) in pay band of Rs.37400-67000 (PB-4) plus grade pay of Rs.8700 on deputation and co-terminus basis with effect from the forenoon of 29th March, 2016 until further orders.

2. The appointment of Shri Pradeep Chaturvedi on the personal staff of Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Smt. Sumitra Mahajan) will be on tenure basis and during the pleasure of Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 12th April 2016

No.F.23/06/2016/GN-7956/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Saroj Arora, Joint Director (PSS) to the grade of Additional Director (PSS) in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.8000, with effect from 11.04.2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/06/2016/GN-7957/AN-I— The Speaker is pleased to appoint Smt. Anita Malik, Senior Private Secretary to the grade of Joint Director (PSS) in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600, with effect from 11.04.2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/06/2016/GN-7958/AN-I— The Speaker is pleased to appoint Smt. Shashi Khaneja, Private Secretary to the grade of Senior Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600, with effect from 11.04.2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/06/2016/GN-7959/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Syed Harun Kamal, Senior Personal Assistant to the grade of Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.5400, with effect from 11.04.2016 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Private Secretary for a period of 2 years with effect from 11.04.2016 upto 10.04.2018.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 13th April 2016

No.PF.208-R(3)/GN-7960/AN-I/2015—Shri Krishendra Kumar, Deputy Secretary, drawing pay in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600/- is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 13th April, 2016 and thereafter his services are placed at the disposal of the Governor's Secretariat, Bihar for his appointment to the post of Special Officer (University) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600/- on deputation basis for a period of three years i.e., w.e.f. 14th April, 2016 upto 13th April, 2019 or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 19th April 2016

No.F.15/10/2014/AN-I/GN-7961—The date of demise of Late P. Loganathan, ex-senior Private Secretary on the personal staff of Chairperson, Committee on Rural Development (Dr. P. Venugopal) in Notification No. GN-7934 dated 12.02.2016, may be read as "5th February, 2016", instead of "4th February, 2016".

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 29th April 2016

No.F.23/03/GN-7962/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri V. Thomas Ngaihte, Joint Director (LARRDIS) to the grade of Additional Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000, with effect from 27th April, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7963/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Deputy Directors(LARRDIS) to the grade of Joint Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3)+ Grade Pay Rs. 7600 in the order as shown below, with effect from 27th April, 2016 until further orders:

1. Dr. Tushar Kant
2. Smt. Poonam Kataria

2. Their inter-se seniority in the grade of Joint Director (LARRDIS) will be regulated in terms of R&CS Order No.PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/03/GN-7964/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Research/Reference Officers to the grade of Deputy Director(LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3)+ Grade Pay Rs. 6600 in the order as shown below, with effect from 27th April, 2016 until further orders:

1. Shri Neeraj Kumar
2. Shri Anupam Bhardwaj

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F/23/24/2015/GN-7965/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Dharmendra Mohan Dixit, Senior Security Assistant to the grade of Security Officer in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 in an officiating capacity with effect from 27th April, 2016 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from the date of his appointment to the grade of Security Officer.

3. He will rank senior to Smt. Sangeeta Bhatt but junior to Shri Kamlesh Kumar Dubey in the grade of Security Officer.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 2nd May 2016

No.PF.920-R(3)/GN-7966/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, the following Directors(Reporting) have retired from service with effect from the afternoon of 30th April, 2016:-

1. Shri H.N. Gupta
2. Smt. Achla Malhotra

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1532-R(7)/GN-7967/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Shri Jasbir Singh, Security Officer has retired from service with effect from the afternoon of 30th April, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.972-R(3)/GN-7968/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Smt. Rattan Pal Grover, Joint Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 30th April, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1347-R(7)/GN-7969/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Smt. Vijay Kumari, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 30th April, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1361-R(3)/GN-7970/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri S. S. Chauhan, Editor to the grade of Joint Director (Translation) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600, with effect from 01st May, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1400-R(3)/GN-7971/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Smt. Sunita Thapliyal, Assistant Editor to the grade of Editor in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600, with effect from 01st May, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1047-R(2)/GN-7972/2016/AN-I— The following persons have satisfactorily completed the probation period in the grade of Private Secretary with effect from the dates mentioned against each:-

Sl. No.	Name	Effective date of satisfactory completion of probation period
1.	Km. Rama Hariharan	08.05.2015
2.	Shri Arun Kumar Vasisht	08.05.2015
3.	Shri Pradeep Kumar	08.05.2015
4.	Shri Manoj Kumar Bundela	08.05.2015
5.	Shri Vinod Kumar	06.08.2015

2. This is in continuation of Notification Nos. GN-7219 dated 9th May, 2013 and GN-7264 dated 8th August, 2013.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 3rd May 2016

No.PF.2657-R(2)/GN-7973/AN-I/2016—The period of probation in respect of Shri Maneesh Mohan Kamble, officiating Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer is extended for the period from 1st April, 2015 to 8th October, 2015.

2. This is in continuation of Notification No.F.15/18/GN-7246/AN-I/2013 dated 11th June, 2013.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 4th May 2016

No. F.23/01/GN-7974/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Additional Directors (Reporting) to the grade of Director (Reporting) in the pay band of Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs.8700, with effect from 02.05.2016 until further orders:-

1. Shri K. Srinivasan
2. Shri K.V. Jagannatha

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No. F.23/01/GN-7975/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (Reporting) to the grade of Additional Director (Reporting) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000, with effect from 02.05.2016 until further orders:-

1. Shri L. Harihara Subramanian
2. Shri H.C. Bist

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No. F.23/01/GN-7976/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri Chander Shekhar Singh, Parliamentary Reporter Grade-I to the grade of Joint Director (Reporting) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600, with effect from 02.05.2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 16th May 2016

No.PF.2862-R(7)/GN-7980/AN-I/2016—Consequent upon acceptance of the resignation tendered by Dr. Balkar Singh from the post of Parliamentary Interpreter Gr-II, he is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 16th May, 2016 and thereafter, his services shall stand placed at the disposal of his parent office i.e., Rajya Sabha Secretariat.

2. He shall not have any lien whatsoever on the post of Parliamentary Interpreter Gr-II in Lok Sabha Secretariat.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 18th May 2016

No.PF.1775-R(7)/GN-7981/AN-I/2016—Shri Pradyuman Singh has satisfactorily completed the probation period in the grade of Security Officer (Technical) with effect from 28.10.2015.

2. This is in continuation of Notification No.F.23/18/2013/GN-7323/AN-I dated 30th October, 2013.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 25th May 2016

No.PF.1325-R(3)/GN-7982/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Ms. Usha Jain, Additional Director (Translation) to the grade of Director (Translation) in the pay band of Rs.37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs.8700, with effect from 24th May, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1342-R(3)/GN-7983/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri J.B.S. Rawat, Joint Director (Translation) to the grade of Additional Director (Translation) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000, with effect from 24th May, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1362-R(3)/GN-7984/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Smt. Manisha Tiwari, Editor to the grade of Joint Director (Translation) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600, with effect from 24th May, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1406-R(3)/GN-7985/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Pankaj, Assistant Editor to the grade of Editor in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600, with effect from 24th May, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.15/10/2014/GN-7986/AN-I— Shri Shiv Nath Mishra is appointed to the grade of Senior Private Secretary in the scale of pay of Rs.15600-39100 (PB-3) + GP Rs.6600 on the personal staff of Chairperson, Joint Committee on Insolvency and Bankruptcy Code, 2015 with effect from 31st December, 2015. He is granted winding up period of fifteen days with effect from 29th April, 2016 to 13th May, 2016 and thereafter his services stand terminated.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 31st May 2016

No.PF.933-R(7)/GN-7987/2016/AN-I—On attaining the age of superannuation, Smt. Saroj Arora, Additional Director (PSS) has retired from service with effect from the afternoon of 31st May, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF-836-R (7)/GN-7988/AN-I/2016—Shri Rajeshwar Singh, Joint Director (LARRDIS) passed away on 21st May, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 1st June 2016

No.F.23/06/2016/GN-7989/AN-I— The Speaker is pleased to appoint Shri Kailash Chander Pandey, Joint Director (PSS) to the grade of Additional Director (PSS) in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.8000, with effect from 01st June, 2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/06/2016/GN-7990/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri P.P. Sastry, Senior Private Secretary to the grade of Joint Director (PSS) in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600, with effect from 01st June, 2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/06/2016/GN-7991/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Sukhvir Singh Dahiya, Private Secretary to the grade of Senior Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600, with effect from 01st June, 2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/06/2016/GN-7992/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Rajesh Chander Bhatt, Senior Personal Assistant to the grade of Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400, with effect from 01st June, 2016 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Private Secretary for a period of 2 years with effect from 01st June, 2016 upto 31st May, 2018.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 7th June 2016

No.F.23/07/2016/GN-7994/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri T.S.Rangarajan, Additional Director, to the grade of Director in the pay band of Rs.37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs.8700 with effect from 6th June, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/07/2016/GN-7995/AN-I—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri Shiva Nand, Under Secretary, who is presently working as Additional Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs (Shri M. Venkaiah Naidu) on deputation and co-terminus basis, to the grade of Deputy Secretary in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 with effect from 6th June, 2016, until further orders.

2. He will rank senior to Shri Ramesh Chand Wadhwa but junior to Shri A.K.Yadav in the grade of Deputy Secretary.

3. His inter-se seniority in the grade of Deputy Secretary will be regulated in terms of R&CS Order No.PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/07/2016/GN-7996/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Under Secretaries to the grade of Deputy Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600, in the order as shown below, with effect from 6th June, 2016, until further orders:-

1. Shri Ramesh Chand Wadhwa
2. Shri Tika Ram Nauriyal
3. Smt. Madhu Bhutani

2. Their inter-se seniority in the grade of Deputy Secretary will be regulated in terms of R&CS Order No.PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/07/2016/GN-7997/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers to the grade of Under Secretary in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600, in the order as shown below, with effect from 6th June, 2016, until further order:-

1. Smt. Savita Bhatia
2. Smt. Indu Bali
3. Smt. Anita

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 10th June 2016

No.PF.2657-R(2)/GN-7999/AN-I/2016—In continuation of Notification No.PF.2657-R(2)/GN-7973/AN-I/2016 dated 3rd May, 2016, Shri Maneesh Mohan Kamble, officiating Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer, is appointed as Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in a substantive capacity with effect from 9th October, 2015.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 29th June 2016

No.F.41/18/2016/GN-8019/AN-I— The Speaker is pleased to place Shri R.C.Tiwari, Director in the pay band of Rs.37400-67000(PB-4) + Grade Pay Rs.8700, to the pay band of Rs.37400-67000(PB-4) + Grade Pay Rs.10000 attached to the post of Joint Secretary with effect from 29th June, 2016 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8020/AN-I—The Speaker is pleased to place Smt. Mamta Kemwal, Additional Director in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000, to the pay band of Rs.37400-67000(PB-4) + Grade Pay Rs.8700 attached to the post of Director with effect from 29th June, 2016 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8021/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Joginder Singh, Deputy Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600, to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.8000 attached to the post of Additional Director with effect from 29th June, 2016 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8022/AN-I/2016—The Speaker is pleased to place Smt. Renu Chitkara, Senior Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Joint Director (PSS) with effect from 14th June, 2016 under the Time Scale Placement Scheme – 2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8023/AN-I/2016—The Speaker is pleased to place Smt. Kanta Negi, Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Senior Private Secretary with effect from 14th June, 2016 under the Time Scale Placement Scheme – 2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8024/AN-I—The Speaker is pleased to place Smt. Lalita Arora, Joint Director (Translation) in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600 to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.8000 attached to the post of Additional Director (Translation) with effect from 27th June, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8025/AN-I—The Speaker is pleased to place Smt. Sunita Upadhyay, Editor in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600 to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Joint Director (Translation) with effect from 27th June, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8026/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Devendra Kumar Sharma, Assistant Editor in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.5400 to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Editor with effect from 27th June, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 30th June 2016

No.PF.1021-R(7)/GN-8028/2016/AN-I—On attaining the age of superannuation, Smt. Meena Chatterjee, Senior Private Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1308-R(3)/GN-8029/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Smt.Vandna Trivedi, Joint Secretary has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 4th July 2016

No.F.23/06/2016/GN-8032/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Neena Sharma, Private Secretary to the grade of Senior Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600, with effect from 02.07.2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/06/2016/GN-8033/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri P. Suresh Kumar, Senior Personal Assistant to the grade of Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.5400, with effect from 02.07.2016 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Private Secretary for a period of 2 years with effect from 02.07.2016 upto 01.07.2018.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1363-R(3)/GN-8034/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri Santosh K. Mishra, Editor to the grade of Joint Director (Translation) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600, with effect from 02nd July, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1401-R(3)/GN-8035/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri Virender Singh Rawat, Assistant Editor to the grade of Editor in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600, with effect from 02nd July, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 6th July 2016

No.PF.1040-R(7)/GN-8042/AN-I/2016—Smt. Sudha Goyal, Senior Private Secretary passed away on 3rd July, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 11th July 2016

No.PF.871-R(3)/GN-8043/AN-I/2016—Smt Vijita Ray Malviya, Research/Reference Officer is relieved of her duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 11th July, 2016 and, thereafter, her services are placed at the disposal of the Secretariat of the Election Commission of India, for her appointment as Library and Information Officer in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600/- on deputation basis for a period of three years i.e. 12.07.2016 upto 11.07.2019 or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 14th July 2016

No.F.41/18/2016/GN-8045/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Satyaveer Singh, Senior Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600 to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Joint Director(PSS) with effect from 12th July, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8046/AN-I—The Speaker is pleased to place Smt. Esha Chowdhury, Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.5400 to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Senior Private Secretary with effect from 12th July, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 18th July 2016

No.PF-824-R(7)/GN-8047/AN-I/2016—Under Rule 48-A of CCS(Pension) Rules, 1972 as adopted vide R&CS Order No. PGF-104/73 dated 25th January, 1973 and R&CS Order No. PGF-201/79 dated 1st January, 1979 as amended from time to time, the Competent Authority has accepted the request of Smt. Promila Pant, Joint Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 15600-39100(PB-3)+Grade Pay Rs. 7600 to permit her to retire voluntarily from service with effect from 18th July, 2016.

2. Accordingly, Smt. Promila Pant has retired voluntarily from service with effect from the afternoon of 18th July, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 20th July 2016

No.F. 41/18/2016/GN-8048/AN-I—The Speaker is pleased to place Dr. D.K. Singh, Director (LARRDIS) in the pay band of Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs. 8700 to the pay band of Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs. 10000 attached to the post of Joint Secretary with effect from 20.07.2016, under the Time Scale Placement Scheme – 2011.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 21st July 2016

No.F.15/10/2014/GN-8049/AN-I—Consequent upon Shri Faggan Singh Kulaste ceasing to be the Chairperson, Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Lok Sabha, Shri Sudhir Singh Rawat, Assistant, TRIFED, New Delhi who was appointed as Senior Private Secretary in his personal staff on deputation/ co-terminus basis, is granted winding up period for 15 days w.e.f. 6th July, 2016 upto 20th July, 2016.

2. Further, in terms of provisions of Department of Personnel & Training OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17.06.2010 as adopted vide R&CS Order No. Misc.87/2011 dated 04.02.2011, Shri Sudhir Singh Rawat is granted Earned Leave for 58 days with effect from 21st July, 2016 upto 16th September, 2016 with permission to suffix 17th and 18th September, 2016 being holidays on account of Saturday and Sunday and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department viz. TRIFED, New Delhi.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.15/10/2014/GN-8050/AN-I—Consequent upon the resignation of Shri Arjun Ram Meghwal as the Chairperson of House Committee in Lok Sabha, Shri Sunil Yadav, Senior Security Assistant, Rajya Sabha Secretariat, who was appointed as Senior Private Secretary in his personal staff on deputation/ co-terminus basis, is granted winding up period for 15 days w.e.f. 6th July, 2016 upto 20th July, 2016 and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department viz. Rajya Sabha Secretariat.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.15/10/2014/GN-8051/AN-I—Consequent upon the resignation of Shri P.P. Chaudhary as the Chairperson of Joint Committee on Offices of Profit and the ceasing of Shri Rajen Gohain as the Chairperson of Joint Committee on Welfare of OBCs in Lok Sabha w.e.f. 05.07.2016, the following Senior Private Secretaries on their personal staff, who were appointed on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of their respective Chairpersons are granted winding up period for 15 days and thereafter their services stand terminated w.e.f. 20.07.2016 (AN), as mentioned below:

Name of the Chairperson(s) (Committee)	Senior Private Secretary
Shri Rajen Gohain (Committee on Welfare of OBCs)	Shri Bhadra Kanta Nath
Shri P.P. Chaudhary (Joint Committee on Offices of Profit)	Shri Rajesh Chippa

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 27th July 2016

No.F.23/06/2016/GN-8054/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Jyoti Prabhakar, Private Secretary to the grade of Senior Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600, with effect from 26.07.2016 until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/06/2016/GN-8055/AN-I— The Speaker is pleased to appoint Smt. Sunita Tageja, Senior Personal Assistant to the grade of Private Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.5400, with effect from 26.07.2016 until further orders.

2. She will be on probation in the grade of Private Secretary for a period of 2 years with effect from 26.07.2016 upto 25.07.2018.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 28th July 2016

No.PF.114-R(3)/GN-8056/AN-I/2016—In continuation of Notification No.PF.114-R(3)/GN-7509/AN-I/2013 dated 31st July, 2014, the Speaker is pleased to extend the tenure of deputation of Shri Sanjeev Sharma, Additional Director as Parliamentary Advisor and Secretary, Public Accounts Committee of Parliament of Nauru for a period of two year with effect from 1st August, 2016 upto 31st July, 2018 or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 1st August 2016

No.PF.1454-R(1)/GN-8060/2016/AN-I—Shri Shiv Prasad, Parliamentary Interpreter Grade-I in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600/- is relieved from his duties in this Secretariat w.e.f. the forenoon of 01st August, 2016 and thereafter his services are placed at the disposal of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) for his appointment as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of State, Consumer Affairs, Food & Public Distribution [Shri C.R. Chaudhary] in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600/- on deputation and co-terminus basis or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 3rd August 2016

No.F.15/10/2014/GN-8061/AN-I—In continuation of this Secretariat Notification No.F.15/10/2014/GN-7931/AN-I dated 01.02.2016, the term of deputation of Shri O.P.S. Marathia, Executive/Legislative/Committee/Protocol Assistant who is presently working as Senior Private Secretary on the personal staff of Chairperson, Railway Convention Committee (Shri Bhartruhari Mahtab) on deputation basis, is extended for a period of one year with effect from 29.07.2016 to 28.07.2017 or until further orders, whichever is earlier.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 10th August 2016

No.PF.1349-R(1)/GN-8062/AN-I/2014—On reversion from deputation to Ministry of Drinking Water & Sanitation as OSD to the Hon'ble Minister of State for Drinking Water & Sanitation [Shri Ram Kripal Yadav], Shri Ashit Bhushan, has resumed duty in this Secretariat as Joint Director (Translation) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 with effect from the forenoon of 26th July, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.15/25/GN-8063/2015/AN-I—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Interpreter Grade-II (Bodo) on the basis of Oration Test, Written Test, Simultaneous Interpretation Test and Personal Interview held from 27.11.2015 to 29.11.2015, the Speaker is pleased to appoint Shri Chintu Brahma to the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II (Bodo) in the Pay Band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01st August, 2016 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 01st August, 2016 upto 31st July, 2018.

3. His inter-se-seniority in the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 16th August 2016

No.F.23/07/2016/GN-8064/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Muraleedharan P., Deputy Secretary, to the grade of Additional Director in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 (pre-revised) with effect from 15th August, 2016, until further orders.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/07/2016/GN-8065/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Krishna C.Pandey, Under Secretary to the grade of Deputy Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600 (pre-revised) with effect from 15th August, 2016, until further orders.

2. His inter-se seniority in the grade of Deputy Secretary will be regulated in terms of R&CS Order No.PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.F.23/07/2016/GN-8066/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Girdhari Lal, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer to the grade of Under Secretary in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 (pre-revised) with effect from 15th August, 2016, until further order.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

The 31st August 2016

No.PF.1432-R(1)/GN-8071/AN-I/2015—On reversion from deputation from the post of Under Secretary in the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Shri Vikas Nema has resumed duties in this Secretariat as Assistant Editor in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 [Pre-revised] with effect from the forenoon of 16th August, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.1026-R(3)/GN-8072/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Smt. Rita Mam, Senior Private Secretary, who has been placed in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) plus grade pay Rs.7600 (Pre-revised) attached to the post of Joint Director(PSS) with effect from 13th September, 2015 under the Time Scale Placement Scheme-2011, has retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

No.PF.278-R(7)/GN-8073/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Smt. Indu Bali, Under Secretary, has retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2016.

ARCHNA PATHANIA, Deputy Secretary

New Delhi-110001, the 17th February 2016

No.F/23/24/2015/GN-7937/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Sangeeta Bhatt, Senior Security Assistant to the grade of Security Officer in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 in an officiating capacity with effect from 17th February, 2016 until further orders.

2. She will be on probation for a period of two years with effect from the date of her appointment to the grade of Security Officer.

3. Her inter-se seniority in the grade of Security Officer will be regulated in terms of R&CS Order No.PDA-1076/2003 dated 20.12.2003.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 5th March 2016

No.PF.2831-R(3)/GN-7949/AN-I/2016—In continuation of this Secretariat Notification No. PF.2831-R(3)/GN-7708/AN-I/2015 dated the 18th March, 2015, the term of deputation of Shri Sushil Kumar Jha, Deputy Secretary (Technical) of Cabinet Secretariat who is presently working as Additional Director (Technical) in Lok Sabha Secretariat on deputation basis, is extended for a period of 02 (two) years with effect from 02.03.2016 to 01.03.2018 or until further orders, whichever is earlier.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 11th March 2016

No.PF.1541-R(2)/GN-7950/AN-I/2015—In continuation of Notification No.F/23/11/2013/GN-7316/AN-I dated 21.10.2013, Shri Sukhpal Singh Negi has satisfactorily completed the probation period in the grade of Security Officer on 17th October, 2015.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 13th May 2016

No.F/23/24/2015/GN-7979/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Shiv Kumar, Senior Security Assistant to the grade of Security Officer in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 in an officiating capacity with effect from 12th May, 2016 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from the date of his appointment to the grade of Security Officer.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 7th June 2016

No.PF.1206-R (3)/GN-7993/AN-I/2016—The Speaker is pleased to appoint Shri S.S.Kukreja, Additional Director (Printing) in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 8000 to the grade of Director (Printing) in the pay band of Rs. 37400-67000 (PB-4) + Grade Pay Rs.8700 with effect from 06.06.2016 until further orders.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 9th June 2016

No.PF.1242-R(2)/GN-7998/AN-I/2016—Shri Daya Shankar has satisfactorily completed the probation period in the grade of Production Officer on 30.12.2015.

2. This is in continuation of Notification No.PF.1242-R(3)/GN-7357/AN-I/2013 dated 31st December, 2013.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 10th June 2016

No.PF.1774-R(2)/GN-8000/AN-I/2016—Shri P.S. Rawat has satisfactorily completed the probation period in the grade of Security Officer (Technical) on 28.09.2014.

2. This is in continuation of Notification No.F.23/3/2012/GN-6970/AN-I dated 01st October, 2012.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 27th June 2016

No.F. 41/18/2016/GN-8002/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Asakho Chachei, Research/Reference Officer in the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 to the pay band of Rs. 15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 6600 attached to the post of Deputy Director (LARRDIS) with effect from 02.05.2016, under the Time Scale Placement Scheme – 2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8003/AN-I—The Speaker is pleased to place Smt. Parmjeet Karolia, Additional Director (Translation) in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.8000 to the pay band of Rs.37400-67000(PB-4) + Grade Pay Rs.8700 attached to the post of Director(Translation) with effect from 19th May, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8004/AN-I—The Speaker is pleased to place the following Joint Directors (Translation) in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600 to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.8000 attached to the post of Additional Director(Translation) under the Time Scale Placement Scheme-2011 with effect from 19th May, 2016:-

1. Shri Veer Singh Tyagi
2. Smt. Aruna Vashisht

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8005/AN-I—The Speaker is pleased to place the following Editors in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600 to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Joint Director(Translation) under the Time Scale Placement Scheme-2011 with effect from 19th May, 2016:-

1. Shri Ravindra Kumar Mair
2. Ms. Paramjeet Kaur

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8006/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Sushant Kumar Pandya, Assistant Editor in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.5400 to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Editor with effect from 19th May, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8007/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Vikas Nema, Assistant Editor in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.5400 who is presently on deputation to Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Editor with effect from 19th May, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8008/AN-I—The Speaker is pleased to place the following officers in the grade of Director in the pay band of Rs.37400-67000(PB-4) + Grade Pay Rs.8700, to the pay band of Rs.37400-67000(PB-4) + Grade Pay Rs.10000 attached to the post of Joint Secretary with effect from 29th March, 2016 under the Time Scale Placement Scheme-2011:-

1. Shri B.Srinivasa Prabhu
2. Shri D.S.Malha

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8009/AN-I—The Speaker is pleased to place the following officers in the grade of Additional Director in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000, to the pay band of Rs.37400-67000(PB-4) + Grade Pay Rs.8700 attached to the post of Director with effect from 29th March, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011:-

1. Shri Rajesh Ranjan Kumar
2. Shri Raju Srivastava
3. Shri P.C.Choulda

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8010/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Sanjeev Sharma, Additional Director in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.8000 who is presently on deputation to Parliament of Nauru, to the pay band of Rs.37400-67000(PB-4) + Grade Pay Rs.8700 attached to the post of Director with effect from 29th March, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8011/AN-I—The Speaker is pleased to place the following Deputy Secretaries in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600, to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.8000 attached to the post of Additional Director with effect from the date mentioned against each, under the Time Scale Placement Scheme-2011:-

Sl.No.	Name	Effective date of Time Scale Placement
01.	Smt. Reena Gopalakrishnan	11-04-2016
02.	Smt. Bharti Sanjeev Tuteja	11-04-2016
03.	Smt. Archana Pathania	11-04-2016
04.	Shri C.Kalyanasundaram	19-05-2016

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8012/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Shiva Nand, Deputy Secretary in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs. 7600, who is presently on deputation on the personal staff of Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs (Shri M.Venkaiah Naidu), to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Deputy Secretary with effect from 11th April, 2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F.41/18/2016/GN-8013/AN-I—The Speaker is pleased to place the following Deputy Secretaries in the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600, to the pay band of Rs.15600-39100(PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Deputy Secretary with effect from the date mentioned against each, under the Time Scale Placement Scheme-2011:-

Sl.No.	Name	Effective date of Time Scale Placement
01.	Shri Ramesh Chand Wadhwa	11-04-2016
02.	Shri Tika Ram Nauriyal	19-05-2016

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.41/18/2016/GN-8014/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Aaqil Nafees, Assistant Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Joint Director(Security) with effect from 04.01.2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 28th June 2016

No.41/18/2016/GN-8015/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Gordhan Lal Meena, Joint Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 attached to the post of Additional Director(Security) with effect from 20.06.2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.41/18/2016/GN-8016/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Ravi Gupta, Assistant Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Joint Director(Security) with effect from 20.06.2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.41/18/2016/GN-8017/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Naresh Kumar, Security Officer in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Assistant Director(Security) with effect from 20.06.2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 29th June 2016

No.F.15/10/2014/GN-8018/AN-I—Shri Shiv Nath Mishra is appointed as Senior Private Secretary in pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) plus grade pay Rs.6600 on the personal staff of Chairperson, Joint Committee on the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016 (Shri Bhupender Yadav) with effect from 12th May, 2016.

2. The appointment of Shri Shiv Nath Mishra to the grade of Senior Private Secretary will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Chairperson, Joint Committee on the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016.

3. He will be designated as Private Secretary to the Chairperson, Joint Committee on the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016.

4. The winding up period granted to Shri Shiv Nath Mishra vide Notification GN-7986 dated 25th May, 2016 is curtailed to 13 days (i.e. upto 11th May, 2016). The Notification ibid stands modified to this extent.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 30th June 2016

No.PF.1345-R(7)/GN-8027/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Smt. Aruna Vashisht, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2016.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.PF.1496-R(7)/GN-8030/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Shri R.S. Panwar, Additional Director(Security) has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2016.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.PF.1520-R(7)/GN-8031/AN-I/2016—On attaining the age of superannuation, Shri Kailash Chander Meena, Assistant Director(Security-TSP) has retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2016.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 4th July 2016

No.F/23/24/2015/GN-8036/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Gordhan Lal Meena, Joint Director (Security) to the grade of Additional Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 with effect from 02nd July, 2016, until further orders.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F/23/24/2015/GN-8037/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Aaqil Nafees, Assistant Director(Security) to the grade of Joint Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 with effect from 02nd July, 2016, until further orders.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F/23/24/2015/GN-8038/AN-I—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri K.P. Balyan, Assistant Director(Security-TSP), who is presently working as Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Chief Minister, Jharkhand [Shri Raghubar Das] on deputation and co-terminus basis, to the grade of Assistant Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 with effect from 02nd July, 2016, until further orders.

2. He will rank senior to Smt. Anjali Bhadola but junior to Smt. Veena Pokhriyal in the grade of Assistant Director(Security).

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F/23/24/2015/GN-8039/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Smt. Anjali Bhadola, Assistant Director (Security-TSP) to the grade of Assistant Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 with effect from 02nd July, 2016, until further orders.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.F/23/24/2015/GN-8040/AN-I—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Security Assistants to the grade of Security Officer in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400, in the order as shown below, with effect from 02nd July, 2016, until further orders:-

1. Smt. Charulata Kapil
2. Shri Asit Narjinary

2. They will be on probation for a period of two years with effect from the date of their appointment to the grade of Security Officer.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 6th July 2016

No.F.15/25/GN-8041/2015/AN—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Interpreter Grade-II (Gujarati) on the basis of Oration Test, Written Test, Simultaneous Interpretation Test and Personal Interview held from 27.11.2015 to 29.11.2015, the Speaker is pleased to appoint Shri Kalpeshkumar Ramanlal Parmar to the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II (Gujarati) in the Pay Band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs. 5400 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 23rd May, 2016 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 23rd May, 2016 upto 22nd May, 2018.

3. His inter-se-seniority in the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 12th July 2016

No.F.15/28/2014/GN-8044/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Ajaye Singh as Assistant Private Secretary on the personal staff of Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Dr. M. Thambi Durai) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400 w.e.f. 01.06.2016, until further orders.

2. His appointment on the personal staff of Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha (Dr. M. Thambi Durai) will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

The 26th July 2016

No.PF.1769-R(3)/GN-8052/AN-I/2016—The Speaker is pleased to place Shri Satish Kumar Semwal, Security Officer (Technical) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Assistant Director (Technical), with effect from 26.07.2016 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

2. The Time Scale Placement of Shri Satish Kumar Semwal is subject to the outcome of the Writ Petition [No. W.P.(C) 2240/2012] pending in the Hon'ble High Court of Delhi.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.PF.1770-R(3)/GN-8053/AN-I/2016—The Speaker is pleased to place the following Security Officers (Technical) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Assistant Director (Technical), with effect from 26.07.2016 under the Time Scale Placement Scheme-2011 :—

1. Smt. Suman Kumari
2. Shri Debasish Chatterjee

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

—
The 1st August 2016

No.41/18/2016/GN-8057/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Himadri Nath Pandit, Joint Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.8000 attached to the post of Additional Director(Security) with effect from 01.08.2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.41/18/2016/GN-8058/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Rajiv Sharma-I, Assistant Director(Security) in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.7600 attached to the post of Joint Director(Security) with effect from 01.08.2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

No.41/18/2016/GN-8059/AN-I—The Speaker is pleased to place Shri Jagir Singh, Security Officer in the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.5400, who is presently on deputation to the Ministry of External Affairs, to the pay band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay Rs.6600 attached to the post of Assistant Director(Security) with effect from 01.08.2016, under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANJAY SETHI, Deputy Secretary

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 7th November 2016

No.5/1(1)/2016-I: The President is pleased to appoint on promotion the under mentioned Scientists/Engineers/ Medical Officer to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2016 against each and until further orders:

Sl.No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
1.	Babu R.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
2.	Navle Sonal Girdharlal	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
3.	Sairajan K.K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
4.	Satyanarayana Kumari B.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
5.	Sajith P.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
6.	M. Srikanth	Scientist/Engineer- SE	Scientist/Engineer-SF
7.	B. Kalpana	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
8.	P. Satheesh	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
9.	Shivani Saxena	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
10.	Mahanand Mrityunjay	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

Sl.No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
11.	Shantala S. H.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
12.	Ravikumar K.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
13.	Manas Ranjan Das Adhikari	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
14.	Govinda Rao Yenni	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
15.	Vijay Shankar Rai	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
16.	Shashank Srivastava	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
17.	Saurabh Gupta	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
18.	P. Vijaya Ganesh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
19.	Priyanka Mishra	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
20.	Rajitha Chinthamreddy	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
21.	Hari Krishna Thota	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
22.	Vignesh Babu M. J.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
23.	Rashmi Behera	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
24.	Dr. M.C. Ramdevi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
25.	Radhakrishna V.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
26.	Abbimaniu Singh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
27.	Pratibha Srivastava	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
28.	Dhiraj Kumar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
29.	Priyanka Yadav	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
30.	Soumajit Chattarjee	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
31.	CH. Phanendra Rao	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
32.	Varun Gupta	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
33.	Manamohan V. Kamat	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
34.	Rima Ghosh	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
35.	Raghunandana K.K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
36.	Ravi Kiran N.K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
37.	Parul	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
38.	Dinesh Dhankhar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
39.	Prince Agrawal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
40.	Abhishek Kumar Singh	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
41.	Smruti Ranjan Panigrahi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
42.	Shashank S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
43.	Sattwik Suman Das	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
44.	Bhovad Priyanka B.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
45.	Subhajit Majumder	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
46.	Aditya Karan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
47.	Dibyaranjan Senapati	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
48.	Ravi Rama Rao	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

Sl.No	Name Shri/Smt/Kum	Post from which promoted	Post to which promoted
49.	R. Aditya	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
50.	Dr. K. Vidyashankar	Medical Officer-SF	Medical Officer-SG
51.	Deepika Jindal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
52.	Sudha Pandey	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
53.	Prerna Khatiwara	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
54.	Daffini Manoj J.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
55.	Srinidhi M.S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE

K.V. LAKSHMANA KUMAR, Deputy Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 1st November 2016

No.A.12025(i)/1/2007-Admn.I(LD)—The President is pleased to appoint the following Assistant Legislative Counsels (Grade IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in Level 12 in the Pay Matrix as per 7th CPC [pre-revised:- Pay Band of Rs.15600-39100/- plus Grade Pay of Rs.7600/-] in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period three months with effect from the forenoon of 14th October, 2016 or until further orders, whichever is earlier.

- (i) Smt. Renu Sinha
- (ii) Shri T.S. Muralidharan

2. This ad-hoc appointment will not bestow on them any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the ad hoc services rendered by them will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

B. M. SHARMA, Deputy Secretary

No. A-32013/8/2014-Admn.I(LD)—On the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Legislative Counsels (Grade IV of Indian Legal Service) to the posts of Deputy Legislative Counsel (Grade III of the ILS) in Level 12 in the Pay Matrix as per 7th CPC (Pre-revised:-Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on regular basis with effect from the forenoon of 10th October, 2016 and until further orders :—

- (i) Shri Ishwar Chander Sharma
- (ii) Shri K sreemannarayana
- (iii) Shri Y Srinivasa Rao

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of two years with effect from the date of their appointment to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) in this Department.

B. M. SHARMA, Deputy Secretary

The 3rd November 2016

No. A-12025(i)/1/2014-Admn.I(LD)-Part—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Smt. Sunita Anand, Assistant Legislative Counsel to officiate as Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in Level 12 in the Pay Matrix (pre-revised:- Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 24th October, 2016 and until further orders.

2. Smt. Sunita Anand will be on probation for a period of two years with effect from 24th October, 2016.

B. M. SHARMA, Deputy Secretary

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 3rd November 2016

No. A-12023(1)/9/2015-Admn.III (LA): The President is pleased to accept resignation tendered by Ms. Rano Jain from the post of Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal, with effect from the forenoon of 11th July, 2016.

SUNEEL SACHDEVA, Under Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th November 2016

No. A-32013/15/2014-Ad.I—The President is pleased to appoint the following SO ad-hoc/Assistant Section Officers of Central Secretariat Services (CSS), Ministry of Home Affairs, to the Section Officers Grade of Central Secretariat Services (CSS), on regular basis, in the Ministry of Home Affairs, in PB-2 (Rs. 9300-34800) with grade pay Rs. 4800/-, consequent upon inclusion of their names in the Section Officers Grade Select List for the years 2012 and 2013 on the basis of Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) and for the years 2012, 2013, 2014 and 2015 against Seniority Quota in terms of DoP&T's OM No. 6/5/2015-CS.I(S) dated 6.2.2015, No. 6/6/2015-CS.I(S) dated 9.2.2015, No. 6/7/2013-CS.I(S) dated 26.12.2014, No. 6/7/2015-CS.I(S) dated 4.3.2014 and No. 6/10/2015 –CS.I(S) dated 31.8.2015:

(i) Section Officers Select List for year 2012 (Seniority Quota):

S. No.	Name of the Officer (Shri/Smt./Km.)	Date of Birth	Cat.	ASO SL Year	ASO SCSL No.
1.	Elizabeth Kujur	13.10.61	ST on merit	1998	053
2.	Narinder Kumar Yadav	25.10.59	Gen	2002	071
3.	Kameshwar Prasad Sah	23.03.61	ST on merit	2002	156
4.	Satish Chandra Navoria	05.01.61	SC	2003	781
5.	Mithlesh Kumari	23.12.60	SC	2003	823
6.	Shiv Narayan	19.11.58	SC	2003	825
7.	Som Dutt	01.07.61	SC	2003	832

(ii) Section Officers Select List for year 2012:

Sl. No.	Name of the Official (Sh./Smt./Km.)	Date of Birth	Cat.	Select List Year	Rank in LDCE
1.	Dheeraj Kumar Singh	07.07.79	Gen	2012	067
2.	Satya Prakash	15.10.79	OBC	2012	244
3.	Surya Pratap Singh	05.12.71	Gen	2012	245
4.	Satya Devan K.	25.07.62	Gen	2012	282
5.	C.R. Chithra	10.05.62	Gen	2012	285
6.	Prasanta Kumar Biswas	01.07.57	SC	2012	320
7.	Chetram Meena	01.09.79	ST	2012	321
8.	Santosh Kumar Bhargava	10.02.81	SC	2012	347
9.	Tilak Raj	20.12.61	SC	2012	362

(iii) Section Officers Select List for year 2013 (Seniority Quota) :

S. No.	Name of the Officer (Shri/Smt./Km.)	Date of Birth	Cat.	ASO SL Year	ASO SCSL No.
1.	P. Achutan Kutty	01.11.56	Gen	2003	500
2.	D. Banerjee	26.05.59	Gen	2003	582
3.	Pradeep Bhattacharya	17.08.57	Gen	2003	595
4.	Rashmi Satpathy	09.12.57	Gen	2003	620
5.	Manjula Verma	10.07.60	Gen	2003	638
6.	Nirmal Kishore	01.07.62	Gen	2003	676

(iv) Section Officers Select List for year 2013:

Sl. No.	Name of the Official (Sh./Smt./Km.)	Date of Birth	Cat.	Select List Year	Rank in LDCE
1.	Inder Mohan	31.05.82	Gen	2013	001
2.	Ashish Batham	16.11.82	Gen	2013	004
3.	Mohd. Tuseef Hussain	06.01.82	Gen	2013	005
4.	Rakesh Kumar	25.08.83	Gen	2013	009
5.	Manoj Kumar Singh	18.03.82	Gen	2013	011
6.	Hari Nath Prasad	03.01.78	Gen	2013	022
7.	Sandipan Ghosh	22.04.81	Gen	2013	030
8.	Santosh Kumar	10.09.78	Gen	2013	035
9.	Dipak Kumar Singh	05.01.81	Gen	2013	051
10.	Sarita Kumari	24.07.83	Gen	2013	063
11.	Bijender Singh	04.11.83	Gen	2013	086
12.	Anurag Saxena	07.06.82	Gen	2013	096
13.	Tamoghna Chaudhuri	13.09.82	Gen	2013	099
14.	Ruchica Singh	23.02.84	Gen	2013	107
15.	Vijay Shankar Tiwari	14.12.81	Gen	2013	134
16.	Gaurav Kumar	31.03.80	SC	2013	145
17.	Anand Kumar Gautam	21.06.86	SC	2013	148
18.	Kuldeep Kumar	18.11.78	SC	2013	158

(v) Section Officers Select List for the year 2014 (Seniority Quota) :

S. No.	Name of the Officer (Shri/Smt./Km.)	Date of Birth	Cat.	ASO SL Year	ASO SCSL No.
1.	Brij Paul	27.04.57	Gen	2003	810
2.	Satish Mohan Kapur	19.05.60	Gen	2003	968
3.	Neelam Sharma	08.02.60	Gen	2003	974
4.	Mary Jones Rattan Singh	01.09.58	Gen	2003	976
5.	Vijay Kumari Saxena	01.02.58	Gen	2003	978
6.	Lalita Rawal	10.12.62	Gen	2003	979
7.	Ananta Kumar Sarkar	15.12.56	SC on merit	2003	984

S. No.	Name of the Officer (Shri/Smt./Km.)	Date of Birth	Cat.	ASO SL Year	ASO SCSL No.
8.	Ghanshyam Dass Nim	01.01.57	SC on merit	2003	985
9.	Kamlesh Ralhan	17.08.57	Gen	2003	988
10.	Syed Zaki Ahmed	21.04.58	Gen.	2003	998
11.	Surinder Kaur	15.04.58	SC	2003	1005
12.	Suman Bala Mehta	02.06.58	Gen	2003	1015
13.	Daya Rani Arora	13.03.58	Gen	2003	1022
14.	Suresh Kumar	21.03.58	SC	2003	1033

(vi) Section Officers Select List for the year 2015 (Seniority Quota):

S. No.	Name of the Officer (Shri/Smt./Km.)	Date of Birth	Cat.	ASO SL Year	ASO SCSL No.
1.	A . Narayanan	16.06.60	Gen	2003	1085
2.	Devendra Kumar	11.09.57	Gen	2003	1090
3.	Sunita Chabra	11.04.61	Gen	2003	1171
4.	Pawan Kumar	24.07.62	Gen	2003	1196
5.	Anil Kumar	26.06.60	Gen	2003	1249
6.	Kiran Lal	23.07.58	Gen	2003	1253
7.	K.J. Sunny	27.05.62	Gen	2003	1255
8.	Surinder Singh Rawat	23.07.63	Gen	2003	1295
9.	Arun Chakraborty	24.11.57	Gen	2003	1321
10.	Sujatha Pradeep	30.05.60	Gen	2003	1335
11.	Shashi Wadhwa	25.11.60	Gen	2003	1336
12.	Maya Sati	24.03.63	Gen	2003	1340
13.	Vanita Arora	10.09.60	Gen	2003	1342
14.	K. Venkata Narsimhan	15.05.57	Gen	2003	1346
15.	Madhubala Juneja	16.11.61	Gen	2003	1350
16.	Sunita Khanija	08.04.58	Gen	2003	1353
17.	V. Devdas	04.02.63	Gen	2003	1379
18.	Rajender Kumar	27.06.62	SC on merit	2003	1447
19.	Shashi Sharma	13.10.62	Gen	2003	1458
20.	Sarbani Bhattacharya	06.12.62	Gen	2003	1482
21.	Harish Chander Babbar	09.01.57	Gen	2003	1484
22.	Rema Subhash	23.12.58	Gen	2003	1511
23.	M. Sirajuddin	13.01.57	Gen	2003	1516
24.	P.S. Anand	13.11.56	SC on merit	2003	1523
25.	B. N. Moorthy	15.10.56	Gen	2003	1537
26.	Pushp Lata Vig	27.05.59	Gen	2003	1575
27.	Govind Ballabh Pandey	03.12.62	Gen	2003	1584
28.	Satbir Singh	04.08.63	SC	2003	1629
29.	Darshan Lal	14.09.60	SC	2003	1864
30.	Suraj Bhan	04.02.58	SC	2003	1924

2. The appointment of Officers included in Section Officer Select List (SOSL) for year 2012 & 2013 against Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) shall be subject to the outcome of the following Court cases and also as per any other order by any competent court in any of the connected matters:

- i. WP(C) No. 5080/2014 filed by UPSC V/s Shri Shanti Lal Bourasi & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- ii. WP (C) No.-5793/2014 filed by UPSC V/s Shri M R Meena & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.
- iii. WP (C) No.-6468/2014 filed by UPSC V/s Shri Rajeev R. & Ors. in Delhi High Court, New Delhi.

SUROJIT GHOSH, Under Secretary

New Delhi, the 9th November 2016

No. I-14011/27/2016-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 23.09.2016 approved the Select List of the year 2014 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 12.08.2016, containing the names of the following State Police Service Officers of Kerala towards filling up of 7 substantive vacancies in the Kerala Cadre of Indian Police Service:-

Select List 2014

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Asokan B.	13.03.1961
2.	Sam Christy Daniel	25.05.1960
3.	Radhakrishnan K.	20.06.1961
4.	Alex K. John	17.01.1961
5.	Venugopal K.B.	30.05.1960
6.	Zachariah George	03.01.1961
7.	Mohamed Rafique V. M.	25.05.1960

KULDEEP KUMAR, Section Officer (IPS-1)

No. I-14011/27/2016-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Kerala Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Kerala Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2014

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Asokan B.	13.03.1961
2.	Sam Christy Daniel	25.05.1960
3.	Radhakrishnan K.	20.06.1961
4.	Alex K. John	17.01.1961
5.	Venugopal K.B.	30.05.1960
6.	Zachariah George	03.01.1961
7.	Mohamed Rafique V. M.	25.05.1960

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

KULDEEP KUMAR, Section Officer (IPS-1)

The 11th November 2016

No. I-14011/17/2016-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 20.10.2016 approved the Select Lists of the years 2014 & 2015 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 10.06.2016, containing the name of the following State Police Service officers of Assam towards filling up 3 & 2, substantive

vacancies for the Select Lists during the year 2014 & 2015 in the Assam Segment of Joint Assam-Meghalaya Cadre of Indian Police Service:—

Select List 2014

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.*	Randeep Kumar Barua	04.11.1966
2.	Kangkan Jyoti Saikia	01.12.1968
3.	Indrani Baruah	21.06.1970

* The name at S.No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

Select List 2015

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
0A@.*	Randeep Kumar Barua	04.11.1966
1.	Jitendra Doley	28.12.1959
2.	Bibekananda Das	29.12.1961

@ The name at S.No. 0A has been included in addition to the size of the Select List as per 2nd proviso to Regulation 5 (5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

* The name at S. No. 0A has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceeding pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

KULDEEP KUMAR, Section Officer (IPS-1)

No. I-14011/17/2016-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Assam Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Assam Segment of Joint Assam Meghalaya Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2014

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Kangkan Jyoti Saikia	01.12.1968
2.	Indrani Baruah	21.06.1970

Select List 2015

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Jitendra Doley	28.12.1959
2.	Bibekananda Das	29.12.1961

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

KULDEEP KUMAR, Section Officer (IPS-1)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 28th October 2016

No.14012/10/2012 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Udit Agrawal, member of the Indian Administrative Service of Gujarat Cadre of 2008 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 01.09.2010.

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
New Delhi, the 30th October 2016

No. 04/2016 (F.No. A-38014/10/2016-Ad.IA)—Shri Vijay Kumar Sharma, an Officer of the Central Secretariat Stenographers Service, posted as Principal Staff Officer in the Department of Revenue is retiring from Government Service on 31st October, 2016 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

V. SREEKUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
New Delhi, the 10th November 2016

NOTIFICATION NO. 15/2016 (F.No.6/2606/2011/PEN/HRD-I/3988)—On attaining the age of superannuation Shri A.K. Tyagi, FTDO in this Directorate retired from Government service with effect from 31.10.2016 (AN).

NIRMAL KUMAR, Dy. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)
New Delhi, the 31st October 2016

No.A-19013/01/2012-Estt. The President is pleased to retire Shri E.P. Muralidharan (CSL No. 4912), Director, Department of Scientific and Industrial Research from Government service on 31st October 2016 (AN) on attaining the age of superannuation.

KULDIP KUMAR, Under Secretary

The 9th November 2016

No.A-19011(2)/95-Estt. Consequent upon his death on 28.10.2016, the name of Shri Korada Srinivasa Rao, Scientist B, Department of Scientific & Industrial Research, is struck off the rolls of the Department of Scientific and Industrial Research w.e.f. 29th October 2016 (FN).

KULDIP KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)
New Delhi, the 21st November 2016

No. A-11014/01/2011-DFQC/G. S. R. (E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Laboratory, Calcutta (Class III and Class IV) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the post of Senior Library Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Library and Information Officer in the Central Drugs Laboratory, Kolkata under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Drugs Laboratory, Kolkata (Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Level in Pay Matrix or Pay Scale. – The number of posts, its classification, Level in Pay Matrix or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or categories of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Library and Information Officer	1* *(2016) (Subject to variation dependent on workload)	General Central Service-Group B Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the Pay Matrix (revised)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption, grades from which promotion or by deputation or by absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable .	Not applicable .	(i)Promotion (ii) By Deputation (including short-term contract).	Promotion: Library and Information Assistant in level 6 in the Pay Matrix (revised) with five years regular service in the grade and possessing Bachelors' degree in Library Science or Library and Information Science. NOTE:-Till the present incumbent to the post of Library and Information Assistant (LIA) is found fit for promotion to the post of Assistant Library and Information Officer (ALIO), the post will be operated in level 6 of the Pay Matrix (revised). Promotion as a method of recruitment will be operated upon when the incumbent to the post of LIA is declared fit by a duly constituted DPC and is promoted to the upgraded post of ALIO based upon possession of essentiality as defined under the Essential Qualifications mentioned under column (11) of these Rules. In the case the existing incumbent permanently vacating the post by way of resignation from service or otherwise, the post

			will be filled by way of Deputation (including short term contract) in the upgraded level 7 in the Pay Matrix (revised). <u>Deputation (including short term contract)</u> Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or autonomous or statutory bodies - (A)(I) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department, OR (II) With five years' regular service in posts in level 6 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) Possessing the following educational qualification and experience:- (I) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute. (II) Two year's professional experience in a Library under the Central or State Governments or Union Territory administrations or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory bodies DESIRABLE: (I) Masters' Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute. (II) Diploma in Computer Applications from a recognised University or Institute. Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2- The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	---

If Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<u>Group B Departmental Promotion Committee (For considering Promotion)</u> 1. Drugs Controller General (India)-Chairman 2. Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata-Member 3. Director (Administration), CDSO (HQ) – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

K. L. SHARMA, Joint Secretary

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY
(AYUSH)

New Delhi-110023, the 28th October 2016

No.A.20010/4/2016-E-I: In pursuance of the recommendations of the Union Public Service Commission and approval of the Appointments Committee of Cabinet (ACC), Dr. Singray Soren has assumed the charge of Adviser (Homoeopathy) in the Ministry of AYUSH in level 14 of Revised Pay Matrix Rs.1,44,200 - 2,18,200/- + NPA, as admissible, as per CCS (Revised Pay) Rules, 2016 with effect from the forenoon of 24th October, 2016 until further orders.

YASH VEER SINGH, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 24th October 2016

No.A-19012/10/2015-EA. Consequent upon approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC), Dr. Suresh Pal is relieved from the post of Member (Official), Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) w.e.f. 17.10.2016 (A.N.) to join the post of Director, ICAR-National Institute for Agricultural Economics and Policy Research (NIAP), New Delhi.

2. Dr. Suresh Pal will also hold additional charge of the post of Member (Official), CACP for a period of six months w.e.f. 17.10.2016 (A.N.), or till the appointment of a regular incumbent, or until further order, whichever is the earliest.

V. SURENDRA, Under Secretary

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110001, the 26th October 2016

No. A-19011/2/2010-Estt. On attaining the age of superannuation Shri Chandra Prakash Badola, Director (CSS), Ministry of Culture shall retire from the Government Service with effect from the afternoon of 31st October, 2016.

MANOJ DEHURY, Under Secretary

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 24th October 2016

No. A-19011/13/2016-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2015-CS-I(U) dated 09.09.2016, and on his being relieved from Ministry of Shipping, Shri Anurag Sharma (CLS No. 6620), Under Secretary is taken on the rolls of Ministry of Minority Affairs w.e.f. 06.10.2016 (F/N).

MAITREYEE ROY, Director

No. A-19011/13/2016-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2016-CS-I(U) dated 28.09.2016, the President is pleased to appoint Ms. Hem Lata (CLS No. 9281) to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in Ministry of Minority Affairs w.e.f. 05.10.2016 (F/N).

MAITREYEE ROY, Director

No. A-19011/13/2016-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/7/2016-CS-I(U) dated 28.09.2016, the President is pleased to appoint Shri Kul Bhushan Singh (CLS No. 9360) to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in Ministry of Minority Affairs w.e.f. 30.09.2016 (A/N).

MAITREYEE ROY, Director

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

New Delhi-110003, the 20th October 2016

No. 2/INCSC/2014-Admn.—Consequent upon their promotion to the post of Research Officer (Joint Cadre) on regular basis, the Competent Authority is pleased to appoint following substantive Senior Investigators (Joint Cadre) to the

post of Research Officer (Joint Cadre) in the Pay Band-2 (₹9,300—34,800/-) with G.P. of ₹4,800/- (pre-revised) on regular basis with effect from the dates indicated against their names :—

S.No.	Name of Officer	Joining Date	Select List
01	Shri Rakesh Kumar Sharma	23.08.2016 (AN)	2007-08
02	Ms. Deepika Khanna	23.08.2016 (AN)	2007-08
03	Shri Sunil Kumar Singh	23.08.2016 (AN)	2009-10
04	Shri Pradip Singh Mehta	23.08.2016 (AN)	2010-11
05	Shri Dulal Krishna Bala	23.08.2016 (AN)	2011-12

S. K. DUBEY, Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th November 2016

No. ERB-I/2016/2/77—The President is pleased to appoint Shri B.N. Mohapatra, HAG/IRAS, as Additional Member (Finance), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500-80,000(pre-revised) with effect from forenoon of 01.11.2016.

R. K. VERMA, Secretary, Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 8th November 2016

No. A-32012/3/2016-MA—The President is pleased to appoint Shri Ajithkumar Sukumaran, Deputy Chief Surveyor, to the post of Principal Officer (Engineering)-cum-Joint Director General (Technical) on promotion basis in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 10,000/- in the office of Mercantile Marine Department, Kochi under the Directorate General of Shipping, Mumbai with effect from 20.10.2016 (FN) until further orders.

SATISH KUMAR, Under Secretary

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th October 2016

No. A-32013/1/2016-Admn.I—President is pleased to appoint the following section officers in the Grade-I Under Secretaries (ad hoc) of CSS with effect from 29.09.2016 in terms of DoP&T OM No. 5/7/2016-CS.I (U), dated 28.09.2016.

Sl.No.	CSL No.	Name of Officers	Present Designation	Date of Birth
1.	9197	Shri K. Dinakar Raj	Under Secretary	12.02.1959
2.	9249	Shri Jagdish Prasad	Under Secretary	10.04.1962
3.	9269	Shri Dharamvir Soni	Under Secretary	30.11.1974
4.	9283	Ms. Nita Arya	Under Secretary	02.05.1964

S. K. GUPTA, Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
 UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in